

**न्यूज़ इन शॉर्ट**

सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, कहर- प्रयागराज में मेरा घर है, चैलेंज दे रहा हूँ, बुलडोजर चलाकर दिखाएँ

प्रयागराज, एजेसी। प्रयागराज के युवक ने युपी के सीएम योगी आदिपुत्र को जान से मारने की धमकी दी है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें कह रहा है- मेरा इमानगान में घर है। चैलेंज दे रहा हूँ, योगी बुलडोजर चलाकर दिखाएँ...कार उल्टेगा। वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर वीडियो का वरिष्ठ नेटवर्क प्रसारित किया गया।



आरोपी शमीम उर्फ बलू के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। फिलहाल, शमीम फरार है। पुलिस कमिश्नर रमिता शर्मा ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं। हालांकि, वीडियो कब का है? इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। शमीम प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे के इमानगान इलाके का रहने वाला है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पर नहीं मिली। पुलिस ने उसके घरवालों से काफी देर तक पूछताछ की।

भाजपा जीत गई तो 2024 के बाद देश में नहीं होंगे चुनाव : आप

नयी दिल्ली, एजेसी। आम आदमी पार्टी ने देशवासियों को संविधान और लोकतंत्र बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो फिर इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को किस तरह से खलल करने की कोशिश की गई है और ऑपरेशन लोटस चला कर किस तरह से अलग-अलग सरकारों को गिराने की कोशिश की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण पूरे देश के सामने है। उन्होंने कहा कि अब जो सूत्र से शुरुआत हुई है वह इस बात का संकेत है कि पिछले 10 साल में ऑपरेशन लोटस चलाकर भाजपा ने अलग-अलग राज्य के विधायकों को तोड़ा और खरीद, सरकारों को गिराया, लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगा।

मोदी, राहुल के विरुद्ध शिकायतों पर चुनाव आयोग ने पार्टियों को नोटिस भेजे

नयी दिल्ली, एजेसी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रवाक नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के



स्टार प्रवाक राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रकाश के दौरान सार्वजनिक वक्तव्यों के जरिये आर्ट्स चुनाव आधार सहित का उल्लंघन किये जाने के खिलाफ विभिन्न शिकायतों पर दोनों पार्टियों को गुरुवार को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने श्री मोदी की विभिन्न चुनाव शैलियों में उनकी कुछ टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा के खिलाफ भाजपा की शिकायतों पर कांग्रेस अत्याचार गठबंधन के नोटिस भेज कर उन्हें भी 29 तारीख तक नोटिस का जवाब मांगा है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटा वन विभाग

उमरिया, एजेसी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बरफ परिक्षेत्र के खिचकिडी बीट के कथ क्रमांक क्रम 263 हथी झील हार में तेंदुए का शव मिला था। प्रथमदृष्टया आपसी संबंध में मौत होना प्रतीत होती है। ज्यादा जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगी।

उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत हो गई। मानपुर बरफ जंगल अंतर्गत खिचकिडी बीट में शक्तिधर परिस्थिति में तेंदुए का शव मिला तो वे वन विभाग सकते में आ गया। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विश्व के मानचित्र पर आना अलग स्थान रखने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बरफ जंगल अंतर्गत आने वाले क्रम 263 की है। मानपुर रेजर सुकेश अडिवान ने बताया कि गहरी छल को जानकारी लगते ही हमको सूचना दी गई और तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया।

**इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- अब मथुरा को भी दिव्य तीर्थ बनाएंगे**

## जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा करने में कसर बाकी नहीं रखेंगे

**विजयमत, व्यूरो इंदौर**  
मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक शुक्ला और पटेल के बारे में कहा कि 'भाजपा प्रवेश समारोह' में भाजपा की धरोहर हुए। आप दोनों ने कार्यकर्ता और जनता के बीच वर्षों तक जड़े गहरी की। जनता से जो वादे किए होंगे। जो सपने देखे होंगे। उसके लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस छोड़ कर सैकड़ों नेता कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इसके लिए बाकायदा एक

समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नाम रखा गया 'भाजपा प्रवेश समारोह'। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। अब मथुरा को भी दिव्य तीर्थ बनाएंगे। कांग्रेस ने हमने मामले उलझाए हैं, लेकिन अब मथुरा भी जगमगाएगी। हमने दीवाली मना ली, अब होली भी मनंगी।



**शुक्ला और पटेल दोनो अब भाजपा की धरोहर हुए**

मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक शुक्ला और पटेल के बारे में कहा कि दोनो अब भाजपा की धरोहर हुए। आप दोनों ने कार्यकर्ता और जनता के बीच वर्षों तक जड़े गहरी की। जनता से जो वादे किए होंगे। जो सपने देखे होंगे। उसके लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। जो आप मांगोगे, उसे सरकार के माध्यम से शुचिता की राजनीति पर चलते हुए पूरा करेंगे। कांग्रेस छोड़कर आप लोगों के आने से जिनके पेट दुख रहे हैं वो बोलते रहेंगे।

**कांग्रेस ने देश की नब्ब को समझा नहीं और 2014 में 115 सीटें आईं**

2014 के पहले कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार थी, लेकिन तब कांग्रेस ने देश की नब्ब को समझा नहीं और केवल वर्ष 2014 में 115 सीटें कांग्रेस की आईं। 2019 में फिर गलती की तो कांग्रेस एक बस की सवारी जितनी रह गई, केवल 52 सांसद जीते थे तब कांग्रेस के। अब जो हालत हुई है, उसके बाद तो कांग्रेस टैपो की सवारी रह जाएगी। समारोह में भाजपा नेता सुरेश पचौरी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, दीपक जैन सहित अन्य नेता मौजूद थे।

**9 जजों की बेंच के सामने घंटों चली सुप्रीम बहस**

# प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हो सकता है समुदाय या संगठन का हक?

**नई दिल्ली, एजेसी**  
देश में संपत्ति बंटवारे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहना खतरनाक होगा कि किसी शास्त्र की निजी संपत्ति पर किसी संगठन या सरकार का हक नहीं माना जा सकता। साथ ही ये कहना भी खतरनाक होगा कि लोक कल्याण के लिए सरकार इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि संविधान का मकसद सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ जजों की बेंच ने ये टिप्पणी की। दरअसल, मुंबई के प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन (पीओए) समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 39बी और 31सी की संवैधानिक योजनाओं की आड़ में सरकार निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39बी के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है या नहीं।



**केंद्र बोला- संविधान संशोधन के बाद भी उसमें मूल प्रावधान बरकरार रहते हैं**

निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39बी के तहत लाने के मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब संविधान में संशोधन करके उसकी जगह अन्य प्रावधान लाया जाता है तो मूल प्रावधान कायम रहता है या नहीं? इस पर केंद्र ने दलील दी कि मूल प्रावधान कायम रहता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप संपत्ति की पूंजीवादी अवधारणा से देखें तो यह विशिष्टता की भावना को बताती है। उन्होंने अपना पैन दिखाते हुए कहा, यह मेरा ही है। वहीं, समाजवादी अवधारणा संपत्ति की समानता की धारणा को बल देती है। यह कहती है कि कुछ भी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि सारी संपत्ति समुदाय के लिए सामान्य है। यह घोर समाजवादी दृष्टिकोण है। आमतौर पर हम संपत्ति को ऐसी चीज मानते हैं, जिसे हम ट्रस्ट के तौर पर रखते हैं।

**मामला महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण कानून से जुड़ा**

दरअसल, ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार के 1976 के महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण कानून से जुड़ा है। इस कानून में प्रावधान है कि सरकार पहले से अधिग्रहित किसी इमारत या जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। इस कानून के खिलाफ सबसे पहले 1992 में याचिका दायर की गई थी। तब से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस कानून का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जर्जर इमारतों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देने वाला महाराष्ट्र का कानून वैध है या नहीं, ये पूरी तरह से अलग मुद्दा है और इसका फैसला अलग से किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने पूछा कि क्या एक बार कोई संपत्ति निजी हो जाने के बाद अनुच्छेद 39बी के दायरे में आती है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि समाजवादी अवधारणा में किसी भी संपत्ति को निजी नहीं माना गया है। समाजवादी अवधारणा संपत्ति पर सभी का हक मानी है। लेकिन हमारे यहां संपत्ति हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रखते हैं। लेकिन हम उस संपत्ति को व्यापक समुदाय के लिए ट्रस्ट में भी रखते हैं।

**जमीन के मालिकों ने लगाई याचिका**

महाराष्ट्र सरकार के कानून के खिलाफ जमीन के मालिकों ने कई याचिकाएं दायर की हैं। प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि यह कानून मालिकों के खिलाफ भेदभाव करने वाला है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन है। यह मुख्य याचिका साल 1992 में दायर की गई थी।

**जबलपुर स्क्रेप यार्ड में ब्लास्ट**

## मौके से शव और सेना में उपयोग किए जाने वाले बम के मिले खोखे



**विजयमत, व्यूरो जबलपुर**

जबलपुर के अधारताल थानांतर्गत खजरी-खिरिया बायपास से स्क्रेप यार्ड में गुरुवार दोपहर धमाका हो गया। ब्लास्ट से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। क्षेत्रीय लोगों को लगा कि भूकंप आ गया। ब्लास्ट के कारण यार्ड की छत व दीवारों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा मलबे के नीचे कई व्यक्तियों के दबे होने की आशंका है। एकस्पर्ट टीम के नेतृत्व में मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर अनिल कुमार कुशवाहा के अनुसार दोपहर लगभग 12.15 बजे खजरी-खिरिया बायपास स्थित शमीर

गाजी के स्क्रेप यार्ड में धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि यार्ड की छत तथा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं ब्लास्ट जिस स्थान पर हुआ है, वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया है। प्रारंभिक तौर पर संभावना है कि बारूद के कारण ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि स्क्रेप यार्ड के अंदर सेना में उपयोग किए जाने वाले बम के खोखे मिले हैं। इस संबंध में यार्ड संचालक का कहना है कि उन्होंने स्क्रेप में सेना से बमों के खोखे लिए हैं। इस संबंध में संचालक को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ओएफके को इस संबंध में सूचित किया गया है। ओएफके के स्पेशलिस्ट की टीम को बरामद बमों के खोखे की जांच करने बुलाया गया है।

**दिल्ली मेयर चुनाव पर संकट: आप का आरोप- परंपरा तोड़ रहे एलजी चंडीगढ़ महापौर चुनाव जैसी साजिश की जताई आशंका**

**नई दिल्ली, एजेसी**  
दिल्ली में शुक्रवार को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को होने वाले मेयर के चुनाव का अभी तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही मशीनों के कंपन के कारण वह 100 फीट गहराई तक चली गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 50 घंटे तक चला और उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। उसे उपचार के लिए ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

**मप्र सहित 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग आज**

**नई दिल्ली, एजेसी।** 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में शुक्रवार (26 अप्रैल) को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होगा। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के खते में 21 सीटें गईं थीं। अन्य 9 सीटें मिली थीं। चुनाव आयोग के मुताबिक, इलेक्शन के दूसरे फेज में 1,198 कैडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 1,097 पुरुष और 100 महिला उम्मीदवार हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने 1,192 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार की।

**अप्रैल माह में बारिश का बन रहा रिकॉर्ड आज प्रदेश के 35 जिलों में अलर्ट**

**विजयमत, भोपाल**  
दूसरे सिस्टम से लगातार पांच दिन तक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 26 अप्रैल तक बारिश, आधी और ओले का अलर्ट है। 25 और 26 अप्रैल को करीब 35 जिलों में मौसम बदला रहेगा। भोपाल, इंदौर, खालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरा मालवा-निमाड बारिश होने की संभावना है। बुधवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.2 एच खरगौन में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.2 एच मंडला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ), साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में ऐसा सिस्टम है। लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है। छठवें दिन बुधवार को भी मौसम ऐसा ही रहा। वहीं बारिश जिलों में गर्मी का असर भी देखने को मिला।

**खास खबर**  
**किसने तैयार की ड्राफ्ट पॉलिसी, नाम बताएं?**

**विजयमत व्यूरो, जबलपुर**  
बोरवेल के संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट पॉलिसी बुधवार को हाईकोर्ट में पेश की गई। ड्राफ्ट पॉलिसी का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मल्लिथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इसे तैयार करने वाले का नाम बताने के निर्देश जारी किए। भोजन अवकाश के बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने वाले व्यक्ति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि 24 घंटों में उस व्यक्ति का नाम कोर्ट को बताया जाए। युगलपीठ ने याचिका पर अगली

सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है। गौरतलब है कि सीहोर जिले के ग्राम मुंगवली में गत 6 जून को तीन साल की मासूम सृष्टि खेलते समय खेत में खुले हुए बोरवेल के अंदर गिर गई थी। बच्चों बोरवेल में 40 फीट अंदर जाकर फंस गई थी। उसे बचाने के लिए रोबोटिक विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही मशीनों के कंपन के कारण वह 100 फीट गहराई तक चली गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 50 घंटे तक चला और उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। उसे उपचार के लिए ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

**पूरे देश व परिवारों को असहनीय पीड़ा देती है ऐसी घटनाएं**  
संज्ञान याचिका में कहा गया था कि बच्चों को जिंद दफन करने वाले किलर बोरवेल को जाल बन गया है। यह सूर्यी काणी लंबी है राजकुमार, गांधी, साई, नदीम, सीमा, फतेहवीर, रितेश और हाल ही में सुष्टि के साथ-साथ कई और खुशामिजाज प्यारे बच्चों की मौत बोरवेल में गिरने के कारण हुई है। कुछ को बचा लिया गया और कुछ इस गहरी, अंधेरी खाई में खो गए। बोरवेल दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए काली छाया है। जिससे निर्दोष लोगों की जान को गंभीर खतरा होता है। ऐसी घटनाएं पूरे देश व परिवारों को असहनीय पीड़ा देती है। भूजल तक पहुंचने के लिए भूखण्डन संसाधन बोर्डेल साइलेंट किलर बन गए हैं। बोरवेल में दुर्घटनाएं आमतौर पर लापरवाही, जागरूकता की कमी और अपराधी सुरक्षा उपाय के कारण होती हैं।

**एमसीयू में रीडर पद पर पूर्व प्रभारी कुलपति द्विवेदी तथा प्रो. श्रीवास्तव की नियुक्तियां निरस्त**

विजयमत व्यूरो, जबलपुर। हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि भोपाल के पूर्व प्रभारी कुलपति संजय द्विवेदी तथा प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव की साल 2009 में रीडर पद पर हुई नियुक्तियों को नियम विरुद्ध माना है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नियुक्तियों में नियम का पालन नहीं किया गया। एकलपीठ ने दोनों की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि वर्तमान में संजय द्विवेदी मास कम्यूनिक्शन विभाग में प्रोफेसर हैं तो पवित्र श्रीवास्तव पीआर विभाग के प्रमुख हैं। प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में साल 2009 में विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे।

**बेबी फूड में अधिक चीनी मिलाने की खबरों पर केंद्र सरकार सख्त**

**नियामक देश भर में इकट्ठा कर रहा नेस्ले के सैंपल**  
**गुंबई, एजेसी**  
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने गुरुवार को बताया है कि वह पूरे भारत से नेस्ले के बेबी फूड सैंपल के नमूने इकट्ठा कर रहा है। नियामक की ओर से यह कार्रवाई उत्पादों में अतिरिक्त चीनी मिलाने की खबरों के बाद की जा रही है। खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जी कमला वर्धन राव ने एसोचैम के एक कार्यक्रम से इतर पीटीआई से कहा, इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। एफएसएसएआई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तरदायी है। इससे पहले, स्विस एनजीओ पब्लिक आई की ओर से प्रकाशित एक वैश्विक रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नेस्ले के शिशु खाद्य उत्पादों में कथित उच्च चीनी की मात्रा पर चिंता व्यक्त किया था।

**न्यूज़ इन शॉर्ट**



**खिचकिड़ी बीट में सदियध परिस्थिति में मिला तेदुएं का शव**

उमरिया। मानपुर बफर जोन अंतर्गत खिचकिड़ी बीट में सदियध परिस्थिति में तेदुएं का शव मिलने का समाचार प्रकाश ने आया है। घटना मानपुर बफर जोन के अंतर्गत आने वाले आर एफ 263 सथी झील हर की बताई जा रही है। इस संबंध में मानपुर डेजर मुकेश अहिरवार ने बताया कि गत्ती दल द्वारा शव मिलने की सूचना दी गई थी, जिस पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। मृत तेदुएं का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृत तेदुएं की उम्र लगभग सात वर्ष बताई जा रही है।

**जिले के विद्यार्थी इंदौर में 8 मिनट में हल करेंगे 200 गणित के सवाल**

उमरिया। जिले के विद्यार्थी गणित के मलकुंभ में भाग लेंगे यह 8 मिनट में 200 गणित के सवालों को हल करेंगे संस्था यूसीमास मानसिक अंकगणित प्रणाली की सार्वभौमिक अध्यापिका की 19वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित होगी इसमें 5 से 13 वर्ष की आयु वाले उमरिया जिले से 11 विद्यार्थी जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे संस्था के प्रबंधक वसीम अकरम ने बताया कि प्रतियोगी छात्रों को 8 मिनट में 200 गणित के जटिलतम सवालों को हल करने की चुनौती रहेगी। कोर्स प्रशिक्षण ने बताया कि यूसीमास संस्था की प्रतिवर्ष होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के करीब 6000 प्रतिभागियों शामिल होंगे प्रतियोगिता के एक दिन बाद पैपियन व पांच रनर अप विद्यार्थियों को इंदौर में सम्मानित किया जाएगा।

**06 चालानों में 2,600/- रुपये समंस शुल्क वसूले**

शहडोल। बिना हेलेमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाने वाले, बिना सीटबेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाने वाले चालकों एवं अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत 06 चालानों में 2,600/- रुपये समंस शुल्क वसूल किया गया कार्यवाही जारी है। पुलिस द्वारा संबंधितों के विरुद्ध चालानों कार्यवाही करते हुए नियुक्तों का पालन करने हेतु कड़ाईपूर्वक निर्देशित किया गया।

**85 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय परिवार का आशुतोष ने बढ़ाया मान**



बुढ़ार। ओ पी एम शिक्षण केंद्र अमलाई झई स्कूल कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्र आशुतोष तिवारी ने झई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 85.5 अंक अर्जित कर विद्यालय एवं परिवार जनों का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि को लेकर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सीमा चतुर्वेदी शिक्षक करण , अकबर सहित समस्त शिक्षकों के साथ श्रेणीय जनप्रतिनिधि पवन कुमार पीली, संदीप पुढी, देवेद मिश्रा, जीवन यादव, रावेद गुप्ता, अश्विनी सिंह, राहुल मिश्रा, ज्ञानेन्द्र पांडे, अविश्व गौतम, राजीव तिवारी, अजय यादव, राजीव रावत, सौरभ सिंह, बुजेंद्र कुमार मिश्रा भाजपा मीडिया प्रभावी अनूपपुर सहित समस्त पत्रकार बंधुओं ने उज्जवल भविष्य की कामना की है।

**विद्यासागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ार की छात्रा परी जैन रही जिला मेरिट में द्वितीय पर**



बुढ़ार। माध्यमिक शिक्षा मंडल गोपाल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के घोषित परिणाम में बुढ़ार में संचालित विद्यासागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा परी जैन ने विज्ञान समूह में जिला मेरिट के अंतर्गत द्वितीय स्थान अर्जित किया। परी जैन प्रारम्भ से ही काफी मेधावी छात्रा रही है एवं इन्होंने कक्षा दसवीं में भी जिला मेरिट में टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, एवं संचालक सुजनेश जैन, प्राचार्य सुधीर जैन एवं वरिष्ठ शिक्षक गंगाराम शुक्ला, श्रीमती रचना सराफ, प्रेमलाल मिश्रा एवं उनके अत्यापक अमन गुप्ता, कन्हैया दास, सुरज मेहरा, श्रीमती नेहा तिवारी एवं सुषिया श्रीवास्तव तथा समस्त अत्यापक वर्ग ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परी जैन बहुत ही साधारण मान परिवार से संबंध रखती हैं उनके पिता प्रवीण जैन एवं माता वीना जैन हैं। पिता एक सामान्य से फल विक्रेता है उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें काफी हर्ष हो रहा है एवं उन्होंने बताया कि वे अपनी पुत्री को नेट कालीफाई करारकर डॉक्टर बनने देखना चाहते हैं। हृदय सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2023-24, बारहवीं में सरस्वती केशव पुरम विद्यालय के कॉमर्स विषय के छात्र अनिकेत नागदेव पित्त प्रकार आरोपी नागदेव के पुत्र बॉर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अनिकेत की इस सफलता पर विद्यालय एवं उनके परिजनों ने छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

परिवहन अधिकारी स्कूल वाहनों और अन्य वाहन की सघन जांच करें  
**संभाग के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तत्काल सुधार कार्य कराएं: कमिश्नर**

**यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए-एडीजीपी**

विजय मत, शहडोल।

कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहडोल संभाग के सभी दुर्घटना संभावित स्थानों में सुधार किया जाए, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स में निर्माण एजेंसियों के अधिकारी साईन बोर्ड लगवाने, रोड मार्किंग करने, प्रकाश व्यवस्था करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि शहडोल संभाग के सभी चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थानों में निर्माण विभाग दुर्घटना रोकने के लिए जो भी कार्यवाहियां करना है वह शीघ्र करें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहडोल जिले के पतखई घाट, सोहागपुर थाने के पास स्थित फ्लाई ओवर, धुरवार टोल प्लाजा, रीवा रोड में ग्राम निपनिया स्टेट हाईवे, उमरिया जिले में मदारी ढाबा के पास, साखी बैरियर के पास चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुधार कार्य किया जाए और रोड मार्किंग, प्रकाश व्यवस्था एवं बोर्ड लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग एवं एनएचए के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे शहडोल संभाग के दुर्घटना संभावित स्थानों का पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करें तथा दुर्घटना रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स में क्या सुधार किया जा सकता है इसकी कार्य योजना बनाकर कार्यवाहियां करें। कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने उक्त निर्देश बुधवार को कमिश्नर कार्यालय शहडोल में आयोजित संभाग स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति



के बैठक में अधिकारियों को दिए। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग एवं एनएचए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहडोल संभाग के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में दुर्घटना रोकने के लिए जो भी कार्यवाहियां की गई हैं इसके फोटोग्राफ्स मुझे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल बसों एवं सवारी बसों की सघन जांच करें तथा देखें कि बसे निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। जो बसे निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं हो ऐसे बसों के

लायसेंस रद्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि आम लोगों को यातायात नियमों के विषय में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए, लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दें। लोगों को सीटबेल्ट लगाना, हेलेमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी करें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग एवं एनएचए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहन दुर्घटनाओं को

कैसे रोक सकते हैं सड़कों का निर्माण करते समय इस पर विशेष ध्यान दें। बैठक में एडीजीपी शहडोल जोन डीसी सागर ने कहा कि वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी भी देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग के सभी चिकित्सालयों में दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिकता के साथ उपचार मुहैया होना चाहिए। दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सालयों में तत्काल उपचार मिलना चाहिए यह भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि आम लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए शहडोल संभाग के प्रमुख स्थानों में प्रदर्शन बोर्ड भी लगाए जाएं ताकि यातायात नियमों की जानकारी आम नागरिकों को हो सके।

बैठक में एडीजीपी ने कहा कि गुड सेमेरिटेन योजना को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शहडोल संभाग के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इनकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में शहडोल संभाग में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीआईजी सविता सोहाने, कलेक्टर शहडोल तरुण भटनागर, कलेक्टर अनूपपुर आशीष वशिष्ठ, कलेक्टर उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमरिया प्रतिपाल सिंह महोबिया ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास मंगन सिंह कनेश, उपायुक्त राजस्व श्रीमती निमिषा पाण्डेय, उपस्थित रहे।

**गांव में भगवान भरोसे चिकित्सा सुविधा**

**ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाए लवर, कहीं नर्स तो कहीं कम्पाउंडर चला रहें अस्पताल**

विजय मत, शहडोल।

जिले के ग्रामीण आंचलों में अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं न होने से जरूरत मंदों को जिला चिकित्सालय की शरण लेनी पड़ रही है। ग्रामीण आंचलों में अस्पताल तो है लेकिन चिकित्सक नहीं हैं। जिसके चलते कम्पाउंडर व नर्स अस्पताल चला रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रसमोहनी में अस्पताल का नया भवन पांच साल से बन कर तैयार है। अस्पताल में वर्षों से चिकित्सक नहीं होने कारण लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। इसी तरह जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर पर संचालित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरहा में डॉक्टर और कंपाउंडर की अनुपस्थिति में रोजाना सैकड़ों मरीज समुचित इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ऐसे में निःशुल्क चिकित्सा की आस में दर्जनों मरीज

रोजाना अस्पताल के सामने भटकते देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं है किंतु किसी भी कर्मचारी के पास इतनी फूरसत कहा है कि मरीजों को प्राथमिक उपचार दे सकें।



ग्रामीणों को आना पड़ता है जिला अस्पताल -जिला अस्पताल में इन दिनों रोजाना बड़ी संख्या में वायरल फीवर के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इन बंधों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इन बंधों में जहां बुखार, पेट दर्द, उल्टी दस्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वहीं युवा से लेकर बुजुर्ग अपने गले में दर्द, सिर दर्द, बुखार की समस्या को लेकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वही बताया गया है ग्रामीण आंचलों से भी लोग

इलाज कराने जिला अस्पताल आ रहे हैं जिसके पीछे का कारण का कारण यह है कि ग्रामीण आंचल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। एक भी दिन नहीं बैठते डाक्टर -खैरहा के उप स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्थिति यह है कि यहां पर एक भी दिन डाक्टर नहीं बैठते हैं, जिसके कारण बीमार लोग शहडोल जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। खैरहा में बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं रहने के कारण जब कभी गंभीर स्थिति बनती है तब मरीज की जान आफत में आ जाती है। खैरहा तथा आसपास के गांव वालों ने मांग की है कि यहां पर डाक्टर की पदस्थापना की जाए। मरीजों को किया जाता है शहडोल

रेफर-बताया जा रहा है रहा है कि खत्रीधों में एक डाक्टर की ड्यूटी सप्ताह में दो दिन बैठने के लिए लगाई गई है लेकिन मरीजों कभी भी यहां पर डाक्टर नहीं मिलते हैं हमेशा कुर्सी खाली ही पड़ी रहती है। ऐसे में कैसे लोग अपना इलाज कराएंगे यह आसानी से समझा जा सकता है। यहां के लोगों का कहना है कि जब मरीज इलाज कराने आता है तो डॉक्टर कभी नहीं मिलते हैं। अगर कोई भी मरीज इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र आता है तो उसे शहडोल रेफर कर दिया जाता है।

ग्रामीणों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों यहां के लोगों का कहना है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार को टैक्स भी देते हैं और देश व प्रदेश के विकास में हर तरह से योगदान देते हैं इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सुविधा में सुधार क्यों नहीं किया जाता है। शासन और प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए।

**निर्देश के बाद भी अवैध कनेक्शन धारी पर नहीं की जा रही कार्रवाई**

विजय मत, शहडोल।

एसईसीएल सोहागपुर एरिया में अगर आज देखा जाए तो अवैध विद्युत कनेक्शन एक बड़ी समस्या बन चुकी है इस कारण से प्रबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ प्रबंधन इन अवैध कनेक्शन धारी पर किसी तरह की कार्यवाही भी नहीं कर रही है और इसी का नतीजा है कि आज अवैध कनेक्शन की वजह से लाखों रुपए का नुकसान एरिया प्रबंधन को उठाना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले जब एरिया महाप्रबंधक देश रत मेरिट खास गए थे तब उन्होंने वहां पर बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन को दिखा तो इस पर नागजगो भी जताई और तत्काल इस पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए महाप्रबंधक के निर्देश के बाद वहां पर जितने भी अवैध कनेक्शन किए गए थे उन्हें हटाने की कार्यवाही की गई और तार को जप्त भी किया गया इसके

**मलेरिया जागरूकता सप्ताह अभियान 30 अप्रैल तक**

उमरिया। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर अवसर पर समस्त लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण एवं शायद बाह्य जिला चिकित्सालय सभागार में किया गया है एवं ब्लाक स्तर पर भी बैठक एवं रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मलेरिया जागरूकता सप्ताह अभियान 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। डॉ. व्ही.एस.चंदेल जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा कक्ष गया कि बुढ़ार आने ए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/आशा,ए.एन.एन. से खून की गॉप करावे एवं उपचार लेवे। रजि.रजि.कर साह जिला व्ही.बी.डी.सी.सलाहकार ने बताया कि मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।

**हनुमान चालीसा पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन**

विजय मत, शहडोल।

मंगलवार को अमलाई स्थित दुर्गा मंदिर परिसर व ज्ञान हार्डवेयर के समीप स्थानीय नव युवाओं व श्रद्धालुओं के द्वारा साफ- सफाई की गई और हनुमान जी का प्रकोटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नव युवाओं व श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया और परिसर तथा ज्ञान हार्डवेयर के समीप विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से स्थानीय भक्त रवेश गुप्ता सनी के द्वारा भक्ति मय से पूरे रूप में लग रहे थे और हनुमान जी की पूजा कर भंडारे का आयोजन कराया



गया। नवयुवक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया। सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से पाठ किया और प्रसाद वितरण कर हनुमान जन्मोत्सव मनाया। मंदिर परिसर में आयोजित किए गये अनुष्ठानों में सहयोग हेतु नवयुवा सेवा समिति अमलाई के सदस्य

मौजूद रहे। जिसमें मुख्य रूप से रवेश सनी गुप्ता, रमेश गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, कपिलेश गुप्ता, चिंटू गुप्ता, मनीष वाधवानी, बहू गुप्ता, महू गुप्ता, दिवाकर कोल, सोहेल मसूरी, बबली, तेजू महारा, पप्पू संजय, फुलेश्वर, पवन,शकील खान, प्रदीप उपस्थित रहे।

**निर्देश**

कलेक्टर के सख्त तेवर कहां व्यवस्था सुधरे या परिणाम भुगतने को अधिकारी रहें तैयार

**शाला त्यागी विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए करे प्रेरित, चलाए अभियान: कलेक्टर**

विजय मत, शहडोल।

कलेक्टर तरुण भटनागर ने कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के घोषित हुए परिणाम में असंतोष व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जिले में संचालित विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर परीक्षा परिणाम बेहतर हो इस संबंध में कार्य योजना बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में आयोजित होने वाली मासिक परीक्षा का मूल्यांकन सही तरीके और ईमानदारी के साथ हो, मासिक मूल्यांकन सिर्फ औपचारिकता न रहे तथा 31 दिसंबर तक पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के अनुसार तैयारी कराए जिससे परीक्षा परिणाम सुधर सके। उन्होंने निर्देश दिए की अतिथि शिक्षकों की भर्ती योग्यता के



अनुसार और निर्धारित मापदंडों के अनुसार करें तथा शिक्षकों की कमी विद्यालयों में न रहे इसकी कार्य योजना पहले से ही निर्धारित कर लें।

उन्होंने कहा कि पुस्तकालय हेतु विद्यालयों को चिन्हित कर पुस्तकालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कलेक्टर में समय शिक्षा अभियान के तहत विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शाला त्यागी विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें और इसके लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा की सचिव, शिक्षक शाला त्यागी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से चर्चा कर विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जाए और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करें। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाए। इसी प्रकार कलेक्टर ने शिक्षा के जुड़ी अन्य कार्यों की भी समीक्षा की तथा कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश जैन, जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाची, डीपीसी अमर नाथ सिंह, अरविंद पांडे, बी.आर.सी.सी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



**सटा पट्टी सहित आरोपी गिरफ्तार**

शहडोल। बुढ़ार थानातलगत कक्षा भग्ना के दौरान लुब्धक द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बनिगन टोला बुढ़ार के पास में एक व्यक्ति सटा पट्टी के माध्यम से लोगों को पैसे की हार गीत के दाव लगवा रहा है। सूचना पर बुढ़ार पुलिस द्वारा उक्त सूचना में बताए गए स्थान में दबिश देकर आरोपी आकाश सोनी पिता प्रदीप सोनी उम्र 26 वर्ष निवासी बनिगन टोला बुढ़ार को सटा पट्टी काटते हुए पकड़ा गया जिसके कब्जे तलाशी लेने पर से सटा पट्टी, पेन एवं नगदी 250 रुपये जब्त किया गया।

**न्यूज़ इन शॉर्ट**

**पत्रकार राजेश जैन को मातृ शोक**

विजय मत, व्यूरो, बीना (सागर)। बीना की जाने-माने पत्रकार साथी माई राजेश जैन की पूर्यतनीय माता श्रीमती चंद्रप्रीती जैन जी आकरिणिक निधन हो गया जिसका अंतिम संस्कार नाईबस्ती मुक्तिधाम में हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में अनेक पत्रकार गण समाज सेवी एवं नेतागण शामिल हुए सभी ने शोक-संतप परिवार को 2 मिन्ट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

**प्रदेश में विज्ञान संकाय में प्राप्त किया 10 वां स्थान किया सागर का नाम किया रोशन**

विजय मत, व्यूरो, सागर। सागर पुलिस लाइन में रहने वाले सौरभ पिपाटी की पुत्री इमानुअल स्कूल की छात्रा विदुषी त्रिपाटी ने 12 वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में विज्ञान संकाय में दसवां स्थान प्राप्त कर सागर का नाम रोशन किया। विदुषी ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया विदुषी ने बताया कि कड़ी मेहनत और प्लान करके जीत हासिल की जा सकती है विदुषी ने 500 में 478 नंबर प्राप्त करके ये स्थान हासिल किया है।

**देवरी पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार पुलिस थाना देवरी जि.सागर**



विजय मत, व्यूरो, देवरी सागर-दिनांक 21.04.24 को मृतक हर्षमाई आदिवासी पिता नारायण आदिवासी उम्र 30 साल निवासी ग्राम डमरवीर थाना देवरी को देवरी अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था मृतक का पी.एम. कराया गया जो मृतक के शरीर पर दहिने हाथ की कलाई में फंकेर, बांये कलाई में खरौये डिस्क में पीछे तरफ चोट व फंकेर होना साथ ही मृत्यु का कारण शिर में इन्ज्यूरी होने से अत्यधिक रक्तश्राव के तेजे से लेख की गई थी जीव के टोशन साक्षियों से पूछताछ की गई जिसमें राजबाबू राजपूत पिता धरमसिंह राजपूत निवासी डमरवीर के द्वारा पुरानी बुयर्ड पर से गंदी गंदी गालिया देकर, डण्डे के साथ मारपीट करना, पाया गया जिससे मृतक हर्षमाई आदिवासी की मृत्यु हो गई जीव में मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 223/2024 धारा 294,323,302 ता.दि. 3(1-र),3(1-घ),3(2-खी),3(2-खीए) एससीएसटी. एवत का अपराध पंजीबद्ध कर विवेकान में लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महेश्वर सागर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस देवरी के मार्गदर्शन में आरोपी की पता तलाश की गई आरोपी राजाबाबू राजपूत पिता धरमसिंह राजपूत निवासी डमरवीर को दिनांक 25.04.24 को गिरफ्तार कर गानगीय न्यायालय पेश किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है उपरोक्त कार्यवाही में एसडीओपी शंशकत सरयान, निरी. रोहित डौगरे, उनि. निशान्त भगत, सजनि. सत्येन्द्र सिंह राजपूत, सजनि. प्रताप सिंह राजपूत, प्र.आर. 191 महेन्द्र पाण्डेय, आर. 1394 राजीव, आर. 327 समीर, आर. 662 मुखेक का विशेष योगदान रहा।

**शराब तस्करी सहित पुलिस ने हथियार लेकर घुम रहे कई बदमाशों को पकड़ा**

भोपाल। राजधानी की अलग-अलग थाना पुलिस ने अवैध तस्करी के साथ ही कई बदमाशों को धारदार हथियार सहित गिरफ्तार किया है। गौतम नगर पुलिस के नुताबिक इलाके में बिंथार राजगढ़ कालोनी से लखनौनारायण उर्फ लखू को 18 हजार की शराब सहित बंधा गया है। वहीं कालेज पुलिस ने कजलीखेड़ा के पास से आरोपी कमलेश अनार और बागसेविनिया पुलिस ने रेत बाजार के पास पुष्पेट को पकड़कर हजारों की शराब जप्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एवट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं हनुमानगंज पुलिस ने अल्पना टाकीज के पीछे से निशातपुर इलाके में रहने वाले शाहज और ईरानी डेय के पास से अरसान निवासी निशातपुरा को पकड़कर छुरी जप्त की है।

**खास-खबर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी वानखेड़े के समर्थन में पूर्व विधायक एवं संजय बापट का तूफानी जनसंपर्क आने वाले समय में किसानों का आर्थिक क्षेत्र मजबूत होगा**

विजय मत, व्यूरो, बीना शुक्रवार को भाजपा मंडल खिमलासा के ग्राम खोजाखेड़ी, गमौरिया, खजूरिया, बम्होरी खाड़ेरा, जंगराई, महोरी, कन्नाखेड़ी एवं बघोरा में सागर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी श्रीमती डॉक्टर लता वानखेड़े के समर्थन में गांव गांव जाकर जनसंपर्क किया। भाजपा खिमलासा मंडल के प्रभारी पूर्व विधायक महेश राय एवं पूर्व जिला भाजपा महामंत्री संजय बापट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर जनसंपर्क कर भाजपा की जीत के लिए वोट मांगे। गांव गांव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में काफी समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक महेश राय ने कहा भाजपा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही



है। आज भाजपा सरकार द्वारा बीना नदी परियोजना के तहत तीन बांध बनाए जा रहे हैं। जो इसी साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी साल बरसात के समय बांधों का टेस्टिंग का कार्य भी होगा। टेस्टिंग के बाद बीना नदी परियोजना के माध्यम से किसानों के खेतों में पाइप लाइन के माध्यम से प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंच जाएगा। बीना नदी परियोजना 1970 में बनी थी। लगभग 55 साल तक कांग्रेस की सरकार ने योजनाओं को ना ही कोई बजट दिया था ना ही योजना को आगे बढ़ाया। बीना नदी परियोजना वहीं की वहीं रही। जब भाजपा की सरकार बनती है तब बीना नदी परियोजना का काम प्रारंभ होता है। बीना नदी परियोजना चार हजार करोड़ की यह परियोजना

**बंद हो चुके बस स्टैंड के आसपास अतिक्रमण भी नहीं हटा, पार्किंग के अभाव में अव्यवस्था फैल रही है बैरागढ़ में पुराने बस स्टैंड से पैदल निकलना मुश्किल, पेड पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर अमल नहीं**

विजय मत, भोपाल संत हिरदाराम नगर ( बैरागढ़) के पुराने बस स्टैंड को व्यवस्थित कर यहां पेड पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर अमल नहीं हो पा रहा है। कुछ हिस्से पर अतिक्रमण के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है। मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व समाप्त होते ही बैरागढ़ के बसों पुराने बस स्टैंड को नगर निगम ने अधिग्रहित कर लिया। धीरे-धीरे नगर निगम ने ही यहां दुकानों का निर्माण करा लिया। कुछ हिस्से में अतिक्रमण हो गया। दुकानों का निर्माण कराते समय

यहां पार्किंग विकसित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

**फैल रही अव्यवस्था**

पार्किंग के अभाव में यहां अव्यवस्था फैल रही है। खाली जगह पर वाहन पार्क कर लोग बाजार चले जाते हैं इससे दूसरे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। बस स्टैंड के चारों तरफ सड़क पर चाय, नाश्ते के ठेले एवं काउंटर रख दिए गए हैं। इनके आसपास



दिनभर भीड़ लगी रहती है। इससे वाहन चालकों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हिस्से पर मैकेनिकों एवं सर्विस स्टेशन वालों ने कब्जा कर रखा है।

**जोन की बैठक में हुई थी चर्चा**

कपड़ा व्यापारी संघ के आग्रह पर पिछले दिनों पुलिस ने सड़क धेकर बैटो मैकेनिकों को सख्ती से हटा

दिया था, पर फिर से वही स्थिति निर्मित हो गई है। हाल ही नगर निगम जोन समिति की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। पार्श्वों ने जरूरी अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव रखा था पर अभी तक इस पर भी अमल नहीं हुआ है। कपड़ा व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष वासुदेव वाधवानी का कहना है कि दुकानों के सामने के अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। पार्श्व अशोक मारण कहते हैं कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।

**विशेषज्ञों ने कहा, कचरा खंती की वजह से प्रदूषित हो रही आबोहवा, भूजल भी दूषित**

**मप्र का बड़ा मुद्दा: शहरों में कचरे के पहाड़, स्वच्छता पर लगा रहे दाग**

विजय मत, भोपाल प्रदेश के लोग स्वच्छता को अपनी आदत बना रहे हैं। यही वजह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार सातवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर और प्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला। इसके बावजूद एक बड़ी चुनौती भी है। जितना बड़ा शहर उतने बड़े कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं। इनके आसपास निकलने वालों को एक से दो किमी तक गंध के चलते नाक-मुंह बंद कर चलना पड़ता है। यह पहाड़ उस शहर के साथ ही पूरे प्रदेश की स्वच्छता पर दाग लगा रहे हैं। कचरे के निस्तारण के लिए राज्य की सरकारों ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई। चुनाव के पहले राजनीतिक दल सकल्प लेते हैं। घोषणाएं करते हैं। स्वच्छता की बात भी होती है, पर यह विषय अनदेखा रहा है।



यही कारण है कि घर और बाजारों से कचरा तो उठा लिया जाता है, लेकिन शहर से बाहर कचरे का पहाड़ बन रहा है। यह मध्य प्रदेश ही नहीं देश के स्वच्छता अभियान को दाग लगा रहा है।

विशेषज्ञों की मानें, तो इस कचरे के कारण शहरों के आसपास बड़ी कचरा खंतियां और पहाड़ बनते जा रहे हैं। इससे आसपास की आबोहवा तो चुनाव के पहले राजनीतिक दल सकल्प लेते हैं। घोषणाएं करते हैं। स्वच्छता की बात भी होती है, पर यह विषय अनदेखा रहा है।

**गीले कचरे से सीएनजी बनाने का दावा भी फेल**

नगरीय निकाय दावा करते हैं, कि सूखे कचरे से खाद और गीले कचरे से सीएनजी बनाई जाती है, लेकिन यह भी भोपाल और इंदौर तक ही सीमित है। सूखे कचरे की खाद में गुणवत्ता नहीं होती। ऐसे में इस खाद का इस्तेमाल खेतों में नहीं किया जा सकता है। फिर यह खाद किस काम की। स्पष्ट गीले कचरे से सीएनजी बनाने का काम भी केवल इंदौर में हो रहा है। भोपाल में बीते पांच वर्षों से प्रयास जारी है, लेकिन अब तक प्लांट ही बनकर तैयार नहीं हुआ।

**कचरे की वजह से कैसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा**

शहरों में कचरे के ढेर की वजह से आसपास के गांवों की आबोहवा प्रदूषित हो रही है। प्लांट व अन्य कचरा उड़कर खेतों में पहुंचता है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। वहीं इससे निकलने वाले लीचट से भूजल बूढ़ी तरह दूषित हो रहा है। जो अब पीने योग्य नहीं बचा है। आसपास के रस्तों से गंधीर बीमारियां हो रही हैं। इनमें कैसर, आंख में जलन, चर्मरोग, फेफड़े के रोग व अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे हैं।

**जब कचरा अलग-अलग ही नहीं हो रहा तो निस्तारण कैसे होगा**

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में ही सौ प्रतिशत कचरा स्रोत पर ही अलग-अलग किया जा रहा। बाकी कुछ कचरे और शहर ऐसे हैं जहां पांच प्रतिशत भी कचरा अलग-अलग नहीं किया जा रहा है। धार्मिक व पर्यटन स्थल अमरकंटक में तो यह न्यून है। सीधी जिले के पुरहट में मात्र एक प्रतिशत जबकि जिला मुख्यालय होने के बाद भी छतपुर में दो प्रतिशत कचरा ही अलग-अलग किया जा रहा है। कचरे का निस्तारण ठीक से नहीं होने के कारण ही प्रदेश स्वच्छता रैकिंग में पहले से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा शहर के गंदे पानी को निर्धारित मापदंड के अनुसार रिसाइकल कर उपयोग के लिए मिलने वाला 'वाटर प्लस' प्रमाण पत्र भी प्रदेश के मात्र सात शहरों को ही मिला हुआ है।

**विश्वविद्यालय: गणित और सांख्यिकी विभाग द्वारा पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 26 अप्रैल से**

विजय मत, व्यूरो, सागर डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के गणित एवं संख्या विभाग में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजक प्रो. आर. के. गंगुले द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 26 अप्रैल 2024 से विभाग के रामानुज सेमिनार हॉल में अपरॉक्सिमेशन टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस विषय पर पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से किया जा रहा है। इस कार्यशाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय की संरक्षक एवं कुलपति माननीय प्रो. नीलिमा गुप्ता द्वारा किया जाएगा कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता के रूप में प्रो. के. सी. पाटीदार यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. देवोप्रिया मुखर्जी आईआईटी इंदौर उपस्थित रहेंगी, डॉ. देवोप्रिया मुखर्जी कार्यशाला के दौरान पारिस्थल डिफरेंशियल

इंकरेशन में तीन विशिष्ट व्याख्यान भी देंगी, इस कार्यशाला में देश-विदेश के लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है जिसमें मुख्य रूप से मलेशिया, स्कॉटलैंड, वेस्ट-इंडीज आईआईटी इंदौर, आईआईटी धनबाद, मुंबई यूनिवर्सिटी, मेरठ कानपुर, अमेठी, पटना, बिलासपुर, पूना, बैंगलोर, कोयंबूर इत्यादि प्रमुख संस्थानों से प्रतिभागी कार्यशाला में हिस्सा लेंगे यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों में मैथमेटिकल फाइनेंशियल मॉडलिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जाना है जिससे उनके शोध में विशेष दिशा के नए आयाम खुलेंगे एवं उनको किसी विशिष्ट फाइनेंशियल रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे जैसे कॉर्पोरेट जगत में फंड मैनेजर, इक्विटी एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट इत्यादि जगहों में बेहतर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

**मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं: बुंदेला कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय की गारंटी है: सुरेंद्र चौधरी**

विजय मत, व्यूरो, सागर/विदिशा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने मंडीबामोरा में जनसभा को संबोधित करते हुए बताया की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में बैठकर मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के काम की बात नहीं करते हैं- उन्होंने कहा की कांग्रेस का घोषणा-पत्र ही गारंटी कार्ड है। सागर विदिशा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला के समर्थन में आज शमशाबाद, सिरोंज, कुर्वाई, खुरई और सुर्खी विधानसभाओं में स्टार प्रचारक पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी एवं कांग्रेस प्रत्याशी की धुआंधार, जोरदार सभाएं आयोजित की गईं। जिनमें हजारों की संख्याओं में लोग उपस्थित रहे।



आज आयोजित सभाओं में विदिशा जिले की विधानसभाओं में शमशाबाद के आमखेड़ा, सिरोंज के मुगलसराय, कुर्वाई के बदरोठा एवं सागर जिले की बीना के मंडीबामोरा, खुरई के बिकोर एवं सुर्खी में सुरखी में स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने

आम सभाओं को संबोधित किया एवं स्थानीय कांग्रेस जनों से मुलाकात की। अपने संबोधन में स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा को झूठ बोलने वाला दल बताया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है, वह करती है कांग्रेस ने आपको पांच गारंटी दी है। सता में आने पर इन्हे पूरा किया जाएगा यह आपसे वायदा है। लोकसभा प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा ने अपने संबोधन में कहा की मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करते। बेरोजगारी, स्वास्थ्य की बात नहीं तो चुप हो जाते हैं। वे जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए झूठी बयानबाजी करते हैं।

**शासकीय अस्पताल मंडी बामोरा में नेत्र परीक्षण शिविर**

विजय मत, व्यूरो, बीना शासकीय अस्पताल मंडी बामोरा में स्वर्गीय श्री नारायण सदाशिव पिंगले सेवा संस्थान के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर सद्गुरु के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर गोलू सेन कैंप प्रभारी जीतू पाठक नेत्र सहायक के एल चौरसिया एवं देवेंद्र जोगी ने लगभग ढाई सी से अधिक मरीजों की जांच कर उनके उन्हे नेत्र रोगों से बचाव के तरीके एवं सावधानियां ऑपरेशन के पश्चात होने वाली सावधानियां के बारे में विस्तार से बतलाया इस अवसर पर 17 से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद चिन्हित किया गया वहीं 150 से अधिक लोगों को निशुल्क दवाइयां का वितरण किया गया वहीं 50 लोगों को चश्मे के नंबर निकालने

जीतू पाठक डॉक्टर गोलू सेन समाजसेवी आनंद मिश्रा एवं के ल चौरसिया ने सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर द्वारा किए जा रहा है प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आगामी दिनों में इसी तरह के कैंप और भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जिससे नेत्र रोगियों को काफी फायदा मिलेगा इस अवसर पर प्रारंभ में सभी अतिथियों ने स्वर्गीय श्री रणछोड़ दास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं समाज से भी आनंद मिश्रा सुनील बाबू ने नेत्र चिकित्सा एवं मां से आए स्टाफ का फूल मालाओं से स्वागत किया इस अवसर मंडी बामोरा के पैरामेडिकल स्टाफ बीएमओ सहित सभी स्टाफ ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।



की सलाह दी गई वहीं लगभग 40 से अधिक लोगों को चश्मा प्रदान किए गए एवं अन्य लोगों को नेत्रों के बारे में सलाह दी गई इस अवसर पर सद्गुरु सेवा संघ के हेमंत तिवारी राकेश भावसार नीलम पाटीदार सहित मंडी बामोरा

के अनेक समाजसेवी दुबे एवं जैन साहब आदि ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वर्गीय श्री नारायण सदाशिव पिंगले सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी सुनील बाबू पिंगले कैंप प्रभारी

संस्थापक  
**स्व. श्री रामसिपाही शुवल**

**चुनाव में चले सियासी तीर, कांग्रेस के घोषणापत्र पर आक्रामक हुई भाजपा**

**सफल होने के हजारों नुस्खे**

सफल होने के नुस्खे हजारों हैं। स्मार्ट सिटी, सुस्त शहर, विकसित कस्बे, पिछड़े गांव, सड़क और गली में, हर कोई हर किसी से आगे निकलने के जुगाड़ में है। सफलता के नुस्खे निजी अनुभव पर भी आधारित हैं। हमारे मित्र सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर आए। उन्होंने सफल होने के खास नुस्खे बताए। पत्नी ने मना किया है, वह कहती है कि इन नायाब नुस्खों को स्वार्थी इंसानों के हवाले न करें। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो मास्टरजी के माध्यम से पता चला था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसी सीख से प्रेरित होकर, पत्नी के नाराज होने के बावजूद, मानवता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानकर, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। समाज के प्रति हमारा कर्ज कुछ तो कम हो जाए इसलिए यह नुस्खे आप सभी के हवाले कर रहे हैं। आपका तबादला नए शहर में होता है। नए अनजान पड़ोसियों से यदि सलाम नमस्ते नहीं होती, वे पानी या चाय आदि के लिए नहीं पूछते तो बुरा न मानते हुए, आप उन्हें ही चाय के साथ नमकीन बिस्कुट खाने के लिए आमंत्रित कर डालें। आप बेहद कम खर्च कर पहले ही दिन एक अच्छे पड़ोसी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। कार्यालय पहुंच कर बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते बोलने के बाद ही अपनी कुर्सी पर बैठिए। आपका व्यायाम भी हो जाएगा और सरकारी समय में, सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध भी मजबूत होते जाएंगे। दूसरों के व्यक्तित्व काम जिन पर आपका कुछ खर्च न होना है, जरूर कीजिए। इससे आप इ्यूटी के दौरान भी इंसानी फर्ज निभाने वाले सहयोगी कहलाएंगे। आप सरकारी गाड़ी से कहीं बाहर या लोकल जा रहे हैं। आपकी पत्नी साथ नहीं जा रही है तो पड़ोसी को जरूर पूछ लीजिए। उन्हें लिफ्ट दे ही डालिए। इसके बदले में आप भी उनकी निजी गाड़ी में कभी कभार जा सकेंगे। कभी अपने काम के लिए बाँस से अनुमति लेने जाना हो तो जरूर पूछ लीजिए कि भाभीजी का कोई काम करना हो तो कृपया बताएं। यदि आप अपनी प्रौढ़ता कम दिखाने के लिए अपने बालों या बचे-खुचे बालों की डेंटिंग-पेंटिंग नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। कम उम्र के पड़ोसियों को बड़ा भाई या स्थानीय अधिभावक कहना शुरू कर दें। इससे छोटे-मोटे कई पंगों को निपटाने में आसानी, उनकी सहायता मिल सकती है। इससे आपकी पेशानियां कम रहेंगी। दो बेहद आजमाए हुए, कम चर्चित नुस्खे आज ही हाथ लगे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत उपयोगी है। नुस्खा अंग्रेजी में है, जो बात बड़ जाने पर शर्तियां काम आता है, 'आइडर यू ठोको देम आर गेट ठोकोड' यानी 'उन्हें पीट दो या पिट जाओ'।



भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार विरोधी दल कांग्रेस के घोषणापत्र को ही आधार बनाकर उस पर इतना तीखा हमला बोला गया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और उसके साथी तिलमिला गए हैं और वह मुख्य धारा तथा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अर्मायदित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। प्रथम चरण के चुनावों में भाजपा नेतृत्व राम लहर और मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बल पर अबकी बार चार सौ पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहा था और चुनावी रैलियों में, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की बात की जा रही थी। भाजपा नेतृत्व अभी तक विपक्ष को परिवारवाद व उनके शासनकाल में किए गये अथाह भ्रष्टाचार और घोटालों की बात करके घेर रहा था लेकिन उसके मुस्लिम तुष्टिकरण पर सीधा प्रहार नहीं कर रहा था किन्तु कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र, राहुल गांधी व विपक्ष के नेताओं के कुछ आपतिजनक बयानों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस तथा विरोधी दलों के घोर मुस्लिम तुष्टिकरण या कहें कि हिन्दू पृणा के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गयी है। मोची स्वयं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के भाषण और कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं खोला।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर एक के बाद एक तीखा प्रहार कर रहे हैं जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारों में हुए हिन्दू विरोधी घटनाओं, निर्णयों, विवादों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजस्थान की एक जनसभा में कहा कि, कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रायर्टी पर है महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के घरों, प्रायर्टी और रहनों का सर्वे कराएगी फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं- बहनों के मंगल सूत्र पर है वो उसे छीन लेना चाहती है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में उसके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों के बैंक एकाउंट में झंकेगी, लॉकर खंगालेगी, जमीन-जायदाद का पता लगायेगी और फिर सब कुछ छीनकर उसे चुसपटियों और ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस यह संपत्ति उन लोगों को बांटेगी जिन्हें मनमोहन सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बयान ने चुनाव के मैदान में तूफान आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को धार्मिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी घेरा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 2004 से 2010 के बीच मुसलमानों को दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हिस्सा काटकर उसमें से ही विशेष आरक्षण देने का भरसक प्रयास किया किन्तु न्यायपालिका के हस्तक्षेप से कांग्रेस

**गुरुंजय दीक्षित**

भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार विरोधी दल कांग्रेस के घोषणापत्र को ही आधार बनाकर उस पर इतना तीखा हमला बोला गया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और उसके साथी तिलमिला गए हैं और वह मुख्य धारा तथा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अर्मायदित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। प्रथम चरण के चुनावों में भाजपा नेतृत्व राम लहर और मोदी के करिश्माई नेतृत्व के बल पर अबकी बार चार सौ पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहा था और चुनावी रैलियों में, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की बात की जा रही थी। भाजपा नेतृत्व अभी तक विपक्ष को परिवारवाद व उनके शासनकाल में किए गये अथाह भ्रष्टाचार और घोटालों की बात करके घेर रहा था लेकिन उसके मुस्लिम तुष्टिकरण पर सीधा प्रहार नहीं कर रहा था किन्तु कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र, राहुल गांधी व विपक्ष के नेताओं के कुछ आपतिजनक बयानों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस तथा विरोधी दलों के घोर मुस्लिम तुष्टिकरण या कहें कि हिन्दू पृणा के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गयी है। मोची स्वयं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के भाषण और कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं खोला।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर एक के बाद एक तीखा प्रहार कर रहे हैं जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारों में हुए हिन्दू विरोधी घटनाओं, निर्णयों, विवादों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजस्थान की एक जनसभा में कहा कि, कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रायर्टी पर है महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के घरों, प्रायर्टी और रहनों का सर्वे कराएगी फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं- बहनों के मंगल सूत्र पर है वो उसे छीन लेना चाहती है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में उसके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों के बैंक एकाउंट में झंकेगी, लॉकर खंगालेगी, जमीन-जायदाद का पता लगायेगी और फिर सब कुछ छीनकर उसे चुसपटियों और ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस यह संपत्ति उन लोगों को बांटेगी जिन्हें मनमोहन सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बयान ने चुनाव के मैदान में तूफान आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को धार्मिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी घेरा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 2004 से 2010 के बीच मुसलमानों को दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हिस्सा काटकर उसमें से ही विशेष आरक्षण देने का भरसक प्रयास किया किन्तु न्यायपालिका के हस्तक्षेप से कांग्रेस

का यह विकृत पायलट प्रोजेक्ट लागू नहीं हो सका जबकि अब यही कांग्रेस भारत का संविधान बदलकर दलित, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के अधिकारों में कटौती करके मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही बयानों से फंस जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुल टॉस गेंद फेंककर चुनाव के मैदान में चौके-छक्के लगाने का अवसर दे बैठते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणापत्र जारी हो जाने के बाद एक जनसभा में कहा कि, सत्ता में आने पर वह देश का एकसरे कर देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम वित्त और संस्थागत सर्वे करेंगे और यह पता लगायेंगे कि हिंदुस्थान का धन किसके हाथों में है और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। इस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रन बनाने का सुनहरा अवसर दे दिया और वे हिंदुत्व को लेकर आक्रामक हो गए।

इस बीच उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अभी तक केवल अयोध्या, मथुरा, काशी और विरोधी दलों के माफिया प्रेम व कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे वो भी बोल पड़े, कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है लेकिन यह देश संविधान से ही चलेगा शरिया से नहीं। योगी का कहना है कि बीजेपी को मिलने वाल एक- एक वोट कर्पूर से मुक्ति और बेटीयों की सुरक्षा से गारंटी देता है। वही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आता है कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर पाकिस्तान की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पात्र और उसके स्तर प्रचारक के बयानों से तो यह तो स्पष्ट ही था कि अब कांग्रेस पूरी तरह से टुकड़े- टुकड़े गैंग और शहरी

नक्सलियों के हाथ में चली गयी है लेकिन कन्हैया कुमार को टिकट देकर उसने इस बात को साबित भी कर दिया। एक समय था कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी व दादी इंदिरा गांधी ने जातिगत जनगणना को देश के लिए घातक माना था आज राहुल गांधी उन्हें के विरुद्ध जाकर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की असली मंशा जगजाहिर हो चुकी है। एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि विपक्ष का गठबंधन तो बन गया है और उनकी तीन रैलियां भी हो चुकी हैं किंतु उसके पास प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात को लेकर असमंजस है विपक्षी दलों के घोषणा पत्रों में कैसे तो विरोधाभास है किंतु मुस्लिम तुष्टिकरण के मामले पर सब एक हैं। आज भाजपा को हिंदुत्व पर आक्रामक होने का अवसर किसी ने दिया है तो वह केवल और केवल कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेता ही हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में मुसलमानों से कई वायदे किये हैं जिसमें उसने कहा है कि सत्ता में आने पर फैसले बहुसंख्यकवाद पर नहीं अल्पसंख्यकवाद पर आधारित होंगे। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि हम अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेंगे।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

**जंग अब विश्व में नहीं, हथियारों में लगे**

**ललित गर्ग**

शांति के तमाम उपायों के बीच दुनियाभर में सैन्य खर्च, शस्त्रीकरण एवं घातक हथियारों की होड़ किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। शस्त्रीकरण के भयावह दुष्परिणामों से समूचा विश्व भयभीत है, हर पल आणविक हथियारों के प्रयोग को लेकर दुनिया डर के साये में जी रही है। इसीलिये आज अयुद्ध, निशस्त्रीकरण एवं शांति की आवाज चारों ओर से उठ रही है। शक्ति संतुलन के लिये शस्त्र-निर्माण एवं शस्त्र संग्रह की बात से किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि इससे अपव्यय हो जाता है, साथ ही किसी भी गलत हाथों से दुरुपयोग होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। ताजा घटनाक्रम को देखें तो एक ओर रूस और यूक्रेन आमने-सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच तलखी भी चरम पर है। चीन और ताइवान के बीच भी रह-रह कर युद्ध के बदल मंडा रहे हैं। ऐसे माहौल में यह सवाल भी गूंजना स्वाभाविक है कि क्या सचमुच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए घातक हथियारों के उपयोग की प्रयोगभूमि बन रही है? सवाल दूसरे ओर भी हैं। स्टॉकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियारों पर आयी ताजा रिपोर्ट ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। इसका संतोषजनक जवाब शायद ही मिले क्योंकि दुनिया सीधे-सीधे दो खेमों में बंट गई है।

स्टॉकहोम की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, उदामे वाले हैं। शांति के तमाम उपायों के बीच दुनियाभर में सैन्य खर्च का बढ़ना एवं नये-नये हथियारों का बाजार गरम होना, चिन्ताजनक है। रिपोर्ट में खास बात यह है कि दुनिया में स्वीडिश सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर बकरदार है। शांति एवं अहिंसा की भूमि पर हथियारों का जमावड़ा उसकी कथनी एवं करनी के भेद को उजागर कर रहा है। ये सवाल स्वाभाविक है कि जब प्रत्येक देश शांति बनाए

रखने की वकालत करता है फिर हथियारों की होड़ लगातर क्यों बढ़ रही है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ??आयातक देश बन चुका है। स्टॉकहोम की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। भारत ने बीते पांच साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019-23 में लगभग दोगुना बढ़ा है। वहीं, इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं, इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे हैं। इस लिस्ट में रूस-यूक्रेन का युद्ध देश के रक्षा निर्यात को काफी प्रभावित किया है। इस कारण से पहली बार रूस हथियार निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो वहीं, अमेरिका पहले और फ्रांस दूसरे नंबर पर है।

पिछले 25 सालों में पहली बार, संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया और ओशिनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा। अमेरिका की हथियारों की होड़ एवं तकनीकीकरण की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। अब तो दुनिया के साथ-साथ अमेरिका स्वयं ही इन हथियारों एवं हिंसक मानसिकता का शिकार है। अमेरिका दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने एवं अपने शस्त्र कारोबार को पनपाने के लिये जिस अपसंस्कृति को उसने दुनिया में फैलाया है, उससे पूरी मानवता कराह रही है, पीड़ित है। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था (न्यू वर्ल्ड ऑर्डर) की बात की है, खुलेपन की बात की है लगत है -विश्वमानव- का दम घुट रहा है और घुटन से बाहर आना चाहता है। विडम्बना देखिये कि अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित देश है लेकिन उसके नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और भयभीत नागरिक हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

**यह कैसी आजादी?**

**निर्मल राठी**

आजादी, निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणी का स्वभाव है। परन्तु जब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाने वाला मानव आजादी की सभी सीमाओं को पार कर मानव समाज के ही अन्य लोगों के लिये पेशानी का सबब बन जाये तो जेहन में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि कहीं वह अपनी आजादी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है? इससे भी बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब आजादी या स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाले उसी व्यक्ति को उसकी बेजा हरकतों के लिए टोका जाये या उसे मना किया जाये या उसे यह बताया जाये कि जिसे वह आजादी समझकर दूसरों के लिये पेशानी खड़ी कर रहा है वह दरअसल गैर कानूनी है अनैतिक है तो वह अपनी गलती माने या उसमें सुधार करने के बजाये बड़े ही शातिरपने से बात को दूसरी तरफ घुमा देता है। यहाँ तक कि लड़ने को भी तैयार हो जाता है और शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा करने लगता है। मिसाल के तौर पर कहीं लाउडस्पीकर पर अज्ञान हो रही हो या मजलिस, मौलाद हो रहा हो और देर रात तक पास पड़ोस के लोगों की नींद खराब हो रही हो, या नमाज पढ़ी जा रही हो जिससे राहगीरों को रास्ता चलने में बाधा पैदा होती हो, और आपने इन सब पर आपत्ति की तो आपको फ़ौरन इस्लाम व मुस्लिम विरोधी बता दिया जायेगा। भले ही शिकायतकर्ता स्वयं मुसलमान ही क्यों न हो। इसी तरह अनेक महिंदरों व गुग्गुदरों में सुबह शाम लाउडस्पीकर पर होने वाले भजन कीर्तन से यदि आस पास के लोग परेशान हैं। बच्चों को इन्तेहान में पढ़ने में परेशानी हो रही है, कहीं जगगात्रे के चलते रास्ता भी रोका हुआ है और रात भर शोर भी हो रहा है। आये दिन कोई न कोई यात्रा जुलूस गाजे बाजे के साथ निकलता ही रहता है। परन्तु यदि आपने वहाँ किसी को कानून समझाया या उस पर आपत्ति की तो आपको सनान विरोधी व धर्म विरोधी बताने में देर नहीं लगेगी। आजकल तो भिखारी लोग भी

आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। वे भी कभी शानि की सवारी लेकर तो कभी साईं की मूर्ति लेकर शोर मचाते लाउडस्पीकर के साथ गली गली मांगते फिरते हैं। यह लोग प्रायः सुबह 5 बजे ही सोते हुए लोगों को उठाकर मांगते हैं और रात के 11 बजे तक इनका यह सिलसिला चलता रहता है। परन्तु आपको आपत्ति करने पर धमियां लोग अपनी धर्मान्धता के नशे में आपके सारे तर्कों को काट कर आपको नास्तिक बताने पर आमादा हो जायेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह के कृत्य में शामिल लोग आपको अपमानित भी कर डालें। हद तो यह है कि ऐसे अवसर पर जो लोग भले ही आपकी बातों से सहमत क्यों न हों परन्तु वे भी सिर्फ इसलिये खामोश रहेंगे कि कहीं उन्हें भी धर्म विरोधी न बता दिया जाये। हमारे आज के समाज की यही कड़वी सच्चाई है। उपरोक्त धार्मिक कृत्यों के अतिरिक्त भी तमाम लोग अपनी निजी आजादी का दुरुपयोग करते हैं। मिसाल के तौर पर गलत जगह गाड़ी पार्क करना, तंग गलियों में कारें खड़ी करना, गलियों में अपने घरों के प्रवेश द्वार पर ऐसे टेपर बनाना जिनसे आधी गली पर ही उनका कब्जा हो जाये। नवधनाढ्यों द्वारा अपने कुतों को दूसरों के दरवाजों पर ले जाकर पोटी कराना। जहाँ चाहे वहाँ खड़े होकर पेशाब करने लगना। आजाद देशवासियों के स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। आखिर कुछ तो वजह है कि जगह जगह यह लिखा दिखाई देता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। उसके बावजूद उसी जगह पर लोगों का खड़े होकर पेशाब करना? यह सब आजादी के दुरुपयोग की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? इसी तरह कई जगह जब लोग अपना मकान बनवाते हैं तो पूरे अधिकार के साथ उस ओर से निकलने वाले पूरे रास्ते को ही बंद कर देते हैं। रास्ते में मिट्टी, बालुईट खबरक या मिक्सर मशीन खड़ी कर रास्ते को पूरी तरह बंद करना ऐसे लोग अपना अधिकार समझते हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

**दैनिक पंचांग**

26 अप्रैल 2024 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

शुक्रवार 2024 वर्ष का 117 वां दिन  
दिशाशूल पश्चिम ऋतु ग्रीष्म।  
विक्रम संवत् 2081 शक संवत् 1946  
मास वैशाख (दक्षिण भारत में चैत्र)  
पक्ष कृष्ण  
तिथि द्वितीया 07.47 बजे को समाप्त।  
नक्षत्र अनुराधा 03.40 बजे रात्र को समाप्त।  
योग वरीयान 04.19 बजे रात्र को समाप्त।  
करण गर 07.47 बजे तदनन्तर वणिज 20.06 बजे को समाप्त।  
चन्द्रायु 17.2 घण्टे  
रवि क्रान्ति उत्तर 13° 36'  
सूर्य उत्तरानन कलि अहर्गण 1871961  
जूलियन दिन 2460426.5  
कलियुग संवत् 5125  
कल्यारंभ संवत् 1972949123  
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123  
वीरनिर्वाण संवत् 2550  
हिजरी सन् 1445  
महीना सव्वाल तारीख 16

ग्रह स्थिति	लनारंभ समय
सूर्य	मेष में 06.36 बजे से
चंद्र	वृश्चिक में 08.34 बजे से
मंगल	मीन में 10.47 बजे से
बुध	मीन में 13.03 बजे से
गुरु	मेष में 15.15 बजे से
शुक्र	मेष में 17.26 बजे से
शनि	कुंभ में 19.41 बजे से
राहु	मीन में 21.57 बजे से
केतु	कन्या में 01.48 बजे से
राहुकाल	मीन 03.21 बजे से
12.00 बजे तक	मेष 04.52 बजे से

दिन का चौघड़िया	रात का चौघड़िया
चर 05.55 से 07.23 बजे तक	रोग 05.38 से 07.1 बजे तक
लाभ 07.23 से 08.51 बजे तक	काल 07.11 से 08.43 बजे तक
अमृत 08.51 से 10.19 बजे तक	लाभ 08.43 से 10.15 बजे तक
शुभ 10.19 से 11.47 बजे तक	उद्देग 10.15 से 11.47 बजे तक
काल 11.47 से 01.15 बजे तक	शुभ 11.47 से 01.19 बजे तक
रोग 01.15 से 02.43 बजे तक	अमृत 01.19 से 02.51 बजे तक
उद्देग 02.43 से 04.10 बजे तक	रोग 02.51 से 04.23 बजे तक
चर 04.10 से 05.38 बजे तक	चर 04.23 से 05.35 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ - शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्देग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jgrutidaur.com, Bangalore

**भावना भी समझें**

एक आदमी बस में रोजाना ही यात्रा करता था। वह बस में केले खाता और छिलके को खिड़की से फेंक देता। एक दिन एक भाई ने कहा, भाई! सड़क पर छिलके डालना उचित नहीं है। दूसरे फिसलकर गिर पड़ते हैं। छिलकों को एक ओर डालना चाहिए। उसने कहा, अच्छे बात है। दूसरे दिन की बात है। पूर्व दिन वाले दोनों यात्री एक ही बस में बैठे हुए थे। एक ने केले छीले, खाए और छिलके डाल दिए। सड़क पर नहीं, अन्यत्र कहीं। साथी ने कहा, धन्यवाद! कल जो मैंने कहा, उसे तुमने मान लिया। आज छिलके सड़क पर नहीं फेंके। उसने कहा, सड़क पर तो नहीं फेंके, पर मेरे पास जो दूसरा यात्री बैठा था, उसकी जेब में चुपके से छिलके डाल दिए। सड़क पर उन्हें डालने की नौबत ही नहीं आई।

**शब्द पहेली - 7988**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			
16	17	18	19	20		
21	22	23	24	25		
26	27	28	29			
34	35	36	37	38		
39		40		41		

**बाएँ से दाएँ**

- ईश्वर, भगवान-2
- सुर, खुरसूल-3
- सलाह, मत-2
- स्नान करना-3
- वध करना-3
- निर्माण-3
- रुई का पौधा-3
- आयुर्वेद-3
- अंजाम देना-3
- कल, हल्ला-2
- नौकरानी-3
- गाने का ढंग, शैली-2
- मुलायम-3
- एक गहरा व बड़ा बर्तन-3
- तृतीय, दूसरे के बाद-3
- सनापति, अगुवा-3
- धो, डपोक-3
- कथा, गाथा-3
- वध, मर्ड-2
- राहु का एक पुत्र-3
- एक विदेशी शराब

**ऊपर से नीचे**

- क्रिकेट में बनते हैं-2
- बसंत का समय-3
- हृद, सरहद-2
- स्वयं का विलोम-3
- यास्ता, मार्ग-2
- एक अंग्रेजी शराब-2
- रूप करना-3
- अपवित्र-3
- असफल-3
- सहज, आसान-3
- श्रावण, आषाढ़ के बाद का महीना-3
- आराम, मदद, चैन-3
- मुखिया, सरदार-3
- भूमि, वसुंधरा-3
- क्रुद्ध, खफा होना-3
- मखन-3
- योग्य, काबिल, गुणवान-3
- दाही का एक भोज्य पदार्थ-3

**शब्द पहेली - 7987 का हल**

ब	ध	न	आ	द	मी
क	द	ग	र	न	ल
त	क	या	त	न	न
ग	य	न	र	र	च
क	ल	आ	स	न	न
व	का	न	ग	न	का
न	न	ग	न	क	न
ह	व्या	व	स	म	न
ग	ल	न	र	ट	न

Jgrutidaur.com, Bangalore

**सूडोकू नवताल- 6773** ★★★★★ मध्यम

7	4	6		1		8		2
	5		8		7			
9				6				
	6		7	9		5		3
5				4				1
3		1	8	2		7		
				5				6
4		3		2		1	5	7

**सूडोकू नवताल - 6772 का हल**

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।

प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

पहली का केवल एक ही हल है।

8	7	9	4	2	5	6	1	3
5	6	3	8	1	7	4	2	9
4	1	2	6	9	3	5	8	7
1	9	8	3	7	4	2	6	5
7	3	4	2	5	6	8	9	1
2	5	6	1	8	9	7	3	4
9	8	5	7	3	2	1	4	6
6	2	7	9	4	1	3	5	8
3	4	1	5	6	8	9	7	2

न्यूज़ इन शॉर्ट



बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता : डॉ. रामटेके

शहडोल। शासकीय बिरसा मुण्डा चिकित्सा महाविद्यालय ने गुरुवार को डॉक्टर गिरीश बी रामटेके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिकाता (डीन) का कार्यभार हाथ में लिया गया। उन्हें पूर्व में पदस्थ रहे डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर ने पुष्प गुच्छ देकर प्रभार सौंपा। इसके पूर्व विदित हो कि डॉक्टर रामटेके चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिकाता रहे हैं। नवनियुक्त डीन प्रोफेसर मेडिसिन एवं कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। निश्चित ही उनके इस अनुभव व योग्यता का लाभ संभोग वासियों को मिलेगा। वर्योकि एक लम्बे समय से संभोग मे कार्डियोलॉजिस्ट की कमी महसूस की जा रही थी। अब नए डीन की नियुक्ति के बाद इनरजेंट की समय हदय रोगियों को इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है। नवनियुक्त डीन ने ले पदभार हाथ में करके के बाद कक्ष कि मेडिकल कॉलेज ने मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नए डीन डॉ. गिरीश भागेधर रामटेके के पद भार हाथ में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया। जिसमें 23 अप्रैल को यूथ एवं महिला विभा की राष्ट्रीय बैठक देखी गई व 24 अप्रैल को खुला अधिवेशन नई दिल्ली के करणलाल सिंह स्टेडियम में संपन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती जया सिन्हा वर्मा रही एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अधिनी लोखानी रहे। इस अधिवेशन में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के विदेशी से आए मेगलान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन नई दिल्ली के ताल कटोर स्टेडियम में संपन्न हुआ जिसमें प्रतिनिधि माउल का सत्र, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक व फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक युनियन के मलनाथ श्री मनोज कुमार बेहड़ा को ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का पुनःराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। विगत 100 वर्षों में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के संघर्ष की गाथाओं के इतिहास को याद किया गया और सोवियत एंव स्वातंत्र्य प्राप्ति का प्रकाशित भी हुई। जिसमें फेडरेशन के मलनाथ श्रमिकारी नेताओं एवं मजदूरों के मसीहा जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व राष्ट्रपति कॉमरेड डी वी गिरी, मजदूर आंदोलन के लोक नायक कॉमरेड जय प्रकाश नारायण, कॉमरेड मधु दसवते एवं, कॉमरेड जॉर्ज मल्लिक, जैसे कई महान हस्तिचों के संघर्ष एवं मजदूरों की हितों की लड़ाइयों में अपना अमूल्य योगदान देने, वाले नेताओं की गाथाओं का इतिहास को लिखा गया।

निजी विद्यालयों का डीईओ ने किया निरीक्षण

अनूपपुर। जिला मुख्यालय स्थित संचालित अशासकीय भारत ज्योति विद्यालय अनूपपुर, बेथल मिशन स्कूल अनूपपुर, महर्षि विद्यालय अनूपपुर तथा सनवीन विद्यालय अनूपपुर का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान शिक्षण व्यवस्था, शूलक में वृद्धि तथा गणित तथा पुस्तक आदि का अवलोकन किया गया। जिसमें कमियां पाई गई। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। संबंधित विद्यालयों को 29 अप्रैल 2024 तक अपना रिपोर्टकरण समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।



ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का कार्यक्रम संपन्न

शहडोल। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के 100 वीं जयंती के अवसर पर 23 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली में तीन दिवसीय कार्यक्रम को सार्वभौमिक स्तर पर संपन्न आयोजन किया गया। जिसमें 23 अप्रैल को यूथ एवं महिला विभा की राष्ट्रीय बैठक देखी गई व 24 अप्रैल को खुला अधिवेशन नई दिल्ली के करणलाल सिंह स्टेडियम में संपन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती जया सिन्हा वर्मा रही एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अधिनी लोखानी रहे। इस अधिवेशन में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के विदेशी से आए मेगलान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन नई दिल्ली के ताल कटोर स्टेडियम में संपन्न हुआ जिसमें प्रतिनिधि माउल का सत्र, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक व फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक युनियन के मलनाथ श्री मनोज कुमार बेहड़ा को ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का पुनःराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। विगत 100 वर्षों में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के संघर्ष की गाथाओं के इतिहास को याद किया गया और सोवियत एंव स्वातंत्र्य प्राप्ति का प्रकाशित भी हुई। जिसमें फेडरेशन के मलनाथ श्रमिकारी नेताओं एवं मजदूरों के मसीहा जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व राष्ट्रपति कॉमरेड डी वी गिरी, मजदूर आंदोलन के लोक नायक कॉमरेड जय प्रकाश नारायण, कॉमरेड मधु दसवते एवं, कॉमरेड जॉर्ज मल्लिक, जैसे कई महान हस्तिचों के संघर्ष एवं मजदूरों की हितों की लड़ाइयों में अपना अमूल्य योगदान देने, वाले नेताओं की गाथाओं का इतिहास को लिखा गया।

निर्देश

अवैध अतिक्रमण एवं कॉलोनीयों पर करें सख्त कार्यवाही :कलेक्टर

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कॉलोनी पर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नगरों में दुकान संचालकों, व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा सड़क पर अवैध कब्जे किए जाते हैं, उनकी निगरानी रखी जाए तथा मुनादी करारकर अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दे रहे थे। बैठक में कलेक्टर ने सर्व शिक्षा अभियान विद्यालय के जर्जर भवन की स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि जिले में अगर कोई स्कूल भवन जर्जर की स्थिति में है, तो उसे प्रमुखता के आधार पर डिस्मेंटल कराए। उन्होंने कहा कि इसका भी ध्यान रखा जाए कि

विजय मत, अनूपपुर। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने निर्देश दिए हैं कि सभी राजस्व अधिकारी जिले में हो रहे अच्छे कार्यों का हिस्सा बने। अच्छे कार्यों का हमेशा सकारात्मक परिणाम होता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व अमला अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें, जिससे जिले में और बेहतर कार्यों का क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि हर सोमवार को अनुभाग स्तरीय समय-सीमा की बैठक आयोजित कर अनुभाग क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं कार्यों की समीक्षा करें। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुर्जर, संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर दीपशिखा भगत, अनुविभागीय अधिकारी कोतमा अजीत तिकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्परजगढ़ सुधाकर सिंह बघेल, अनुविभागीय अधिकारी जैतही अंजलि द्विवेदी सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने जिले में ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पेयजल एवं बोरेवल व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल एवं बोरेवल व्यवस्था की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। जिले में सभी को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो इसका भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ समन्वय




स्थापित कर जिले में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में राइजर पाइप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अगर कोई हैंडपंप खराब है तो हैंडपंप में तुरंत राइजर पाइप डलवाकर चालू कराएं और जहां 200 फीट से नीचे जल स्रोत है और हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है वहां सिंगल फेस मोटर भी डालें, जिससे लोगों को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हैंडपंप के संभारण हेतु जानकारी अनुभाग अंतर्गत कार्यालय से अवश्य लें तथा समय में हैंडपंप सुधार हेतु टीम जा रही है या नहीं, इसकी भी निगरानी रखें। खुले बोरेवल पर करें कार्यवाही - कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तीन-चार दिवस में भ्रमण कर सुनिश्चित करें कि अगर किसी स्थान में खुले बोरेवल है या इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उनके संचालकों को तत्काल सूचित कर समय सीमा के भीतर खुले बोरेवल बंद कराएं, अगर बोरेवल दिए गए समय पर बंद नहीं होता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर स्वयं बोरेवल बंद कराए। सभी राजस्व अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों का करें निरीक्षण-कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र अंतर्गत आगामी दो माह के अंदर समय-समय में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें। बैठक में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से

आंगनबाड़ी केंद्र में मेन्सू के अनुसार बच्चों को पोषण आहार, नारता, भोजन इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी आकरिमक रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें तथा बच्चों को मिलने वाली पोषण आहार की व्यवस्थाओं का जायजा ले। इसी प्रकार कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्परजगढ़ को निर्देशित किया कि पुष्परजगढ़ में मुख्य रूप से शूकर पोषण आहार का निरीक्षण करें वहां से ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बच्चों की वजन एवं ऊंचाई का परीक्षण भी स्वयं के समक्ष कराएं, जिससे बच्चों के कुपोषण एवं अति कुपोषण के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके तथा उन्हें आरसी में भर्ती कराया जा सके। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से संबंधित 13 प्रकार के रजिस्टर एवं आंगनबाड़ी संबंधित एप में डाटा एंट्री की भी जानकारी ले तथा निरीक्षण करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए निर्देश- कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन एवं जल निगम के अंतर्गत जो भी कार्य जिले में हो रहे हैं, उनका भी निरीक्षण समय समय में करें। उन्होंने कहा कि जिले में जो बसहट जल संकट ग्रस्त है, वहां जल जीवन मिशन एवं जल निगम द्वारा क्या-क्या कार्य कराए गए हैं और क्या-क्या कार्य समय सीमा में नहीं हुए हैं, इसका भी अवलोकन करें। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सभी परियोजनाएं समय पर पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिले।

कोयला खदानों की सुरक्षा के साथ किया जा रहा खलवाड़

न तो चहारदीवारी का निर्माण और ना ही लगाए जा सके कंटीले तार, अफसरों को चिंता नहीं

विजय मत, शहडोल। एसईसीएल सोहागपुर एरिया की कोयला खदानों में कबाड चोरी की घटनाओं पर सवाल भी उठते हैं लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर खदानों की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन लापरवाही क्यों बरत रहा है। एसईसीएल की सुरक्षा व्यवस्था में लगे कालरी प्रबंधन और जिम्मेदारों पर भी उठ रहे हैं। बन्द खदानों में सैंड फीलिंग नहीं होती है। बन्द पड़ी खदानों के को सुरक्षित तरीके से बन्द नहीं किया जाता है और न ही कोई निगरानी की जाती है। बन्द पड़ी खदानों की सुरक्षा का जिम्मा भी एसईसीएल के जिम्मे हैं। कालरी खदानों की सुरक्षा में लगे अधिकारी और गार्ड्स पर हर माह लाखों रुपये एसईसीएल खर्च करता है। इसके बाद भी बन्द खदानों के मुहाड़े में कबाड चोर घुसते रहे, लेकिन कोल माइंस के सुरक्षा में लगे जिम्मेदार अनदेखी करते रहे। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधन की ओर से की जानी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह हाल लगभग एरिया की समस्त खदानों का है। करोड़ों रुपये की बेश कीमती कबाड खदानों में यहां वहां पड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा विभाग न ध्यान दे रहा है और ना ही जिम्मेदार। रात होते ही खदानों में होती है कबाड की चोरी - बता दें कि रात होते ही खदानों में कबाड की चोरी बढ़ जाती है और इस बढ़ती चोरी से प्रबंधन को सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार कबाड चोरी की घटनाओं को अंजाम देने



के लिए जब कबाड चोर खदानों में प्रवेश करते हैं तो यहां को ही काट देते हैं पर केवल तारों जिससे सबसे अधिक होता है। यहां होती है सबसे अधिक चोरी की घटनाएं- एरिया की सबसे पहले तीन भूमिगत खदानों की बात की जाए जिसमें राजेंद्रा खरहा और दामिनी शामिल है और यहां की तीनों ही खदानों में वर्तमान समय में चोरी की घटनाएं सबसे अधिक देखी जा रही हैं। कहीं ना कहीं प्रबंधन की अनदेखी भी बढ़ती चोरी की घटनाओं में एक बड़ा कारण नजर आता है। कोयला खदानों के चारों तरफ चारदीवारी जर्जर है। कबाड चोरों के प्रवेश का आसान रास्ता साबित होता है तो वही खदान के अंदर मैदानों पर बड़ी बड़ी झाड़ियां

जो नजर आती हैं यह उनकी सुरक्षा को और बढ़ा देता है। मौका पाते ही कबाड चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद बड़ी ही आसानी से इन्हीं रास्तों से वापस निकल जाते हैं और इस तरह से बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की जगह और इजाफा देखा जा रहा है। रात के अंधेरे में दिया जाता है चोरी का अंजाम- समय समय पर चोरी की घटनाओं को लेकर शिकायत थानों तक पहुंचती है लेकिन सवाल यह उठता है कि रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों के द्वारा जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उस पर कार्यवाही भी दूर दूर तक नजर नहीं आती ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती कई मामलों में कार्यवाही की गई है लेकिन सवाल यह उठता है कि जब खदान के अंदर ही समस्याएं अनेक हो तो फिर बढ़ती चोरी की घटनाएं कैसे रके। प्रबंधन खदानों में समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं करता है। अगर खदानों के चारों तरफ बाउंड्री बाल का निर्माण कर दिया जाए फेंसिंग तार लगा दी जाए और खदानों के अंदर मैदानों पर जो बड़ी-बड़ी झाड़ियां नजर आती हैं, अगर उनकी सफाई कर दी जाए तो निश्चित ही काफी हद तक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। अगर खदान में महत्वपूर्ण स्थान पर की व्यवस्था बेहतर कर दी जाए तो इससे खदानों में मौजूद सुरक्षा को भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में आसानी होगी।

अत्याचार पीड़ितों के लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित हो-कलेक्टर

अनूपपुर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इश्राद मंसूरी, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय, चारों अनुभागों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, एसडीओपी अनूपपुर, उप पुलिस अधीक्षक अजाक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, जनजातीय कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त उपस्थित थे। बैठक में अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि, यात्रा भत्ता, उनके प्रकरणों में गवाही देने वालों को राहत राशि तथा प्रकरणों के आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के संबंध में चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को तथा अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक सहायता, गवाहों एवं आश्रितों को यात्रा भत्ता नियमानुसार प्रदान किए जाने के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के प्रति हो रहे अत्याचार को रोकने संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही कर आर्थिक सहायता तथा भत्ता आदि के प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

शुभदीप खरे बने जन परिषद के संभागीय अध्यक्ष



जिले में जर्जर स्कूल भवन को प्राथमिकता के आधार पर कराएं डिस्मेंटल- कलेक्टर

शहडोल। अखिल भारतीय स्तर की सामाजिक संस्था जन परिषद के संयोजक रामजी श्रीवास्तव की अनुशंसा पर जन परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी एन के त्रिपाठी ने शुभदीप खरे को जन परिषद के शहडोल चैप्टर का अध्यक्ष मनोनीत किया है। च च ज्ञात रहे जन परिषद राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था है, जो कि गत 35 वर्षों से सामाजिक एवम् रचनात्मक कार्यों में सक्रिय होने के साथ साथ, कई ऐतिहासिक एवम् अभूतपूर्व सदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन कर चुकी है। संस्था के इस समय पूर्व देश में 208 से अधिक एवम् विदेशों में 6 चैप्टर्स बन चुके हैं। संस्था प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को अलंकृत करती है जो कि रचनात्मक एवम् सामाजिक सुधार के कार्यों को मूर्तरूप दे रहे हैं। जन परिषद शहडोल चैप्टर का गठन संपन्न हुआ।

निविदाकार को जारी किया गया अंतिम नोटिस

अनूपपुर। जिला खनिज प्रतिष्ठान पर अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में नैगवां से सोनियामार्ग पर जोहिला नदी में रफ्ट निर्माण कार्य के निविदाकार अनिल बिरुडकॉन (एचडब्ल्यू प्रॉजेंट लिमिटेड) को लम्बे समय से कार्य की पूर्णता नहीं किए जाने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री सुभाष प्रताप सिंह ने अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जबब संतोषजनक न होने की स्थिति में फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लेख किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों के निविदाकारों द्वारा कार्यों में शिथिलता बरतने पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में आर्डरिंग द्वारा नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है।

नशे की जद में बचपन



उमरिया में नशे का कारोबार इन दिनों काफी तेजी से फल-फूल रहा है। लेकिन हेरत की बात ये है कि इसके जद में अब देश का भविष्य भी गिरफ्त में आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उमरिया में देखने को मिल रही है। जहां 7-12 वर्ष तक के छोटे-छोटे बच्चे एक अलग तरह की नशा करते दिख रहे हैं। ये गरीब मासूम बच्चे जिनके हाथों में कलम कापी और पेंसिल होनी चाहिए थी अब उनके हाथों में नशा के लिए बोनाफिक्स, सुलेशन जैसे चीजें दिखाई दे रही हैं। आज सुबह ही सजेसी मंडी इलाके में दो बच्चे पॉलिथीन में बोनाफिक्स और सुलेशन डाल कर अपने मुंह और नाक से उसे खिंच कर नशे की जद में जा रहे थे। इन नौनिहालों को नहीं पता है कि ये सांसे उनकी लंबी सांसों को धीरे धीरे बंद करने वाली है। जब इन बच्चों से हमने बातचीत किया और उन्हें इस बुरी लत से बचने को समझाने लगे तो ये नशा करते बच्चे का कहना है कि दोस्तों ने पीना सिखाया है बोलते थे मीठा लाता है उस समय से ही पी रहे हैं। उन्होंने बताया चंदिया के निवासी है कछरवार में टेंट वाले के यहां काम करते हैं उससे जो पैसा मिलता है तो बोनाफिक्स सूंघते हैं। इसके अलावा भी लोरहा चंदिया आदि जगहों से जिला मुख्यालय में भिक्षावृत्ति व कबाड आदि चीजों का काम करते हैं, वह बड़ी तादाद में

जिले में जर्जर स्कूल भवन को प्राथमिकता के आधार पर कराएं डिस्मेंटल- कलेक्टर

विजय मत, उमरिया। इस नशे की गिरफ्त में हैं। अब देखा-देखी इस तरह का नशा करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आसानी से होता है उपलब्ध-बोनफिक्स और सुलेशन एक ट्यूब है, जिसका इस्तेमाल रबर, प्लास्टिक और शीशा चिपकाने और पंचर बनाने में होता है। ये बोनाफिक्स और सुलेशन ट्यूब आसानी से जनरल स्टोर व साईकल दुकानों पर मिल जाती है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है 5 - 10 रुपये में यह मिल जाती है। बच्चे और युवा इस ट्यूब को टिश्यू पेपर पर निकालकर उन्हें सूंघते हैं, जिससे उन्हें नशा होता है। जैसे ही नशे का असर कम होता है, फिर से बोनाफिक्स लुभे इन टिश्यू पेपर, प्लास्टिक को सूंघ लेते हैं। जागरूकता की है आवश्यकता - बोनाफिक्स आदि का नशा तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। टीनएजर्स इस तरह के नशा का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में बहुत कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए थी अब उनके हाथों में नशा के लिए बोनाफिक्स, सुलेशन जैसे चीजें दिखाई दे रही हैं। आज सुबह ही सजेसी मंडी इलाके में दो बच्चे पॉलिथीन में बोनाफिक्स और सुलेशन डाल कर अपने मुंह और नाक से उसे खिंच कर नशे की जद में जा रहे थे। इन नौनिहालों को नहीं पता है कि ये सांसे उनकी लंबी सांसों को धीरे धीरे बंद करने वाली है। जब इन बच्चों से हमने बातचीत किया और उन्हें इस बुरी लत से बचने को समझाने लगे तो ये नशा करते बच्चे का कहना है कि दोस्तों ने पीना सिखाया है बोलते थे मीठा लाता है उस समय से ही पी रहे हैं। उन्होंने बताया चंदिया के निवासी है कछरवार में टेंट वाले के यहां काम करते हैं उससे जो पैसा मिलता है तो बोनाफिक्स सूंघते हैं। इसके अलावा भी लोरहा चंदिया आदि जगहों से जिला मुख्यालय में भिक्षावृत्ति व कबाड आदि चीजों का काम करते हैं, वह बड़ी तादाद में

# अचार का ज्यादा सेवन बांटे तरह-तरह की बीमारियां



## पाचन हो सकता है खराब

बाजार के अचार में संरक्षक के रूप में कुछ एसिडिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होते और इसका स्वाद भी खट्टा-चटपटा होता है। अचार अगर थोड़ी मात्रा में खाया जाये तो यह आपके पाचन के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें कई तरह के आयुर्वेदिक मसालों का प्रयोग किया जाता है। मगर ज्यादा मात्रा में अचार का सेवन आपके पाचन को बिगाड़ भी सकता है। दरअसल, अचार के ज्यादा सेवन से शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है।



## दिल की बीमारी का भी खतरा

बाजार के अचार में तेल की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, ताकि यह अचार लंबे समय तक खराब न हो और सूखे नहीं। तेल में फेट होता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए अचार ज्यादा खाने वालों को दिल की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। चूंकि दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए, आपको अचार का सेवन रोज नहीं करना चाहिए और बहुत कम मात्रा में करना चाहिए।



भारतीय खानों की थाली अचार के बिना अधूरी है। हमारे यहां हर मौसम में अलग-अलग फल और सब्जियों से चटपटे और स्वादिष्ट अचार बनाये जाते हैं। आजकल बाजार में भी सैकड़ों तरह के अचार मिलते हैं। नींबू, गाजर, मिर्च, लहसुन, आम, आंवला, अदरक आदि के अचार जो बाजार में मिलते हैं, उन्हें कई लोग चटखारे लेकर खाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अचार का ज्यादा सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? आइये, आपको बताते हैं कि ज्यादा अचार के सेवन से कौन-कौन सी परेशानियां हो सकती हैं।



## ब्लड प्रेशर का खतरा


बाजार में मिलने वाले अचार में नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। नमक एक तरह का संरक्षक भी है, जो चीजों को खराब होने से बचाता है। इसलिए, बाजार के अचार में नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। नमक का ज्यादा सेवन सेहत के लिए खतरा रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा अचार खाते हैं, तो आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपरटेंशन का खतरा होता है। ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए, इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी रहता है।



## कौन सा अचार खायें


अगर आप अचार के शौकीन हैं, तो अच्छी क्वालिटी का अचार खायें और रोजाना खाने के बजाय कभी-कभी कम मात्रा में खायें। कम मात्रा में अचार का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी है। बेहतर होगा कि आप घर में ही कम तेल-मसाले और नमक वाला अचार बनायें, इससे आपके सेहत के लिए स्वाद से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा।

## दिमाग की बीमारियां



ज्यादा मात्रा में नमक के सेवन से शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है और रक्त वाहिकाओं में सूजन भी आ जाती है, क्योंकि नमक में सोडियम बहुत ज्यादा होता है। सोडियम का ज्यादा सेवन आपके दिमाग के लिए खतरनाक है। क्योंकि इससे दिमाग की नसों में सूजन हो सकती है और आप गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं या आपकी याददाश्त जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम होती है, मगर लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने से ऐसा हो सकता है।

## कैंसर का खतरा...



आपको जानकर हैरानी होगी कि अचार खाने से आपको कैंसर का भी खतरा हो सकता है। दरअसल, बाजार में बिकने वाले सस्ते अचारों में घटिया संरक्षक का इस्तेमाल किया जाता है, जो हानिकारक केमिकल्स से बने होते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाला तेल-मसाला भी घटिया क्वालिटी का हो सकता है। ऐसे में केमिकल युक्त इन अचारों को खाने से आपको कैंसर का खतरा भी हो सकता है।

# मानसून में सबसे अधिक झड़ते हैं बाल, ऐसे रखें सुरक्षित

बारिश के मौसम में आम दिनों के मुकाबले बाल ज्यादा झड़ते हैं। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं- जैसे बारिश के पानी का इन्फेक्शन, जड़ों का कमजोर होना, साफ-सफाई का ध्यान न रखना, पोषक तत्वों की कमी, डेडवुव, तनाव आदि। अगर आप भी बालों के झड़ने के डर से बारिश का खुलकर मजा नहीं ले पा रहे हैं, तो परेशान न हों। बालों के झड़ने और ज्यादा टूटने की समस्या से बचने और उससे छुटकारा पाने में घरेलू उपचार मददगार होते हैं।

## नींबू भी है कारगर



पांच चम्मच दही, एक चम्मच नींबू का रस, दो चम्मच कच्चे चने का पाउडर इन सब को मिलाकर एक मिश्रण बना लें। इस मिश्रण को सिर पर लगायें और एक घंटे तक लगे रहने के बाद सिर को धो लें। इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जायेंगे।

## मेथी बालों में लगायें



मेथी को रात में भिगो दीजिये और सुबह उसे दही में मिलाकर बालों और जड़ों में लगायें। बालों को धो लें, इससे रूसी और सिर की त्वचा के विकार समाप्त होंगे। मेथी में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को पोषण पहुंचाता है। साथ ही बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है।

## प्याज का रस लगायें




प्याज में सल्फर अधिकता में पाया जाता है। इसके प्रयोग से बालों का टूटना बंद हो जाता है। इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले प्याज को काटकर उसके कई टुकड़े कर लीजिये। इसके बाद उसे जूसर में डालकर उसका रस निकाल लीजिये। प्याज के रस में थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर उन स्थानों पर लगायें, जहां बाल झड़ रहे हैं। इसके अलावा, पूरे सिर में बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। 30 मिनट बाद धो लें।

## कढ़ी पता



कढ़ी पत्ते में ढेरों औषधीय गुण होते हैं। भारतीय भोजन में इसका प्रयोग सदियों से हो रहा है। आमतौर पर सुगंध और सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके बालों के झड़ने की समस्या को दूर कर उन्हें मुलायम और चमकीले भी बनाता है। इसके लिए कढ़ी पत्तों को नारियल के तेल में तब तक उबालें जब तक वह काली न हो जायें। फिर इन्हें बालों की जड़ों में लगायें।

## उड़द की दाल का लेप



मानसून में बाल कमजोर हैं या झड़ रहे हैं, तो उड़द की दाल आपके बड़े काम आ सकती है। उड़द की दाल को उबालकर पीस लीजिये, रात को सोने से पहले इस लेप को सिर पर लगाइयें। कुछ दिनों के बाद बाल उगने लगते हैं और गंजापन समाप्त हो जाता है। बालों में लगाने के साथ-साथ इस मौसम में उड़द की दाल को अपने खाने में भी शामिल करें। ये बालों को जरूरी प्रोटीन और मिनरल्स देती है।

## कॉर्न चीज बॉल्स



बारिश के मौसम में अगर आप गर्मागर्म पकौड़े खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार कॉर्न चीज बॉल्स ट्राई करके देखें। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। इसे एक बार खाने के बाद आप पकौड़ों को टेस्ट करना भूल जाएंगे। आइये, जानते हैं इसे बनाने की विधि।



## सामग्री

- मोजरेला चीज- 1 कप
- स्वीट कॉर्न- 1 कप
- आलू (उबले और मैश किए हुए)- 1-2 आलू
- अरारोट- 1 चम्मच
- चाट मसाला- 1/2 छोटा चम्मच
- काली मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- मैदा पेस्ट- 3 बड़ा चम्मच
- ब्रेड क्रम्ब्स- एक कप
- तेल- फ्राई करने के लिए

## विधि

- सबसे पहले बाउल में सारी सामग्री डालकर अच्छी तरह मिलायें।
- अब चीज के लिए तैयार किये हुए मिश्रण में से कुछ हिस्सा लेकर नींबू के आकार में गोल कर लें।
- फिर इसको अरारोट के साथ कोटिंग करें।
- इसके बाद इसे मैदे के पेस्ट में डिप करके ब्रेड क्रम्ब्स से कोटिंग करें।
- यही प्रक्रिया बाकी मिश्रण के साथ दोहरायें और इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें।
- अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें गोल की हुई चीज बॉल्स डालें और इसे धीमी आंच में सुनहरी भूरे रंग के होने तक फ्राई करें।
- इसका एक्सट्रा तेल सोखने के लिए इसे टिशू पेपर पर निकालें।
- कॉर्न चीज बॉल्स बनकर तैयार है। अब केचप सॉस के साथ सर्व करें।

## राशिफल

<p><b>मेष</b></p> <p>आज का दिन आपके लिए लाभदायी है। व्यापार और व्यवसाय में भी अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना अधिक है। आय की वृद्धि होगी।</p>	<p><b>वृषभ</b></p> <p>आज के दिन आप व्यापार को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देंगे। नई योजनाएं की नवीनता से व्यापार प्रगति की दिशा में अग्रसर होने लगेगा।</p>	<p><b>मिथुन</b></p> <p>नकारात्मक विचारों को मन से निकाल देने पर हताशा की अवस्था में उभर पायेंगे। अनैतिक और अप्रामाणिक कार्य विपत्ति में डाल सकते हैं।</p>
<p><b>कर्क</b></p> <p>किसी के साथ आज भावनात्मक संबंध से बंध सकते हैं और उस संबंध में कुछ अधिक भावनाशील रहेंगे। मनोरंजक प्रवृत्ति से मन प्रफुल्लित रहेगा।</p>	<p><b>सिंह</b></p> <p>व्यापार के विस्तृतिकरण के हेतु धन का आयोजन करने के लिए बहुत अनुकूल दिन है। व्याज, दलाली आदि के द्वारा आय में वृद्धि होने की संभावना है।</p>	<p><b>कन्या</b></p> <p>वस्त्राभूषणों की खरीदी आप के लिए रोमांचक और आनंददायी रहेगी। कला के प्रति अभिरुची विशेष रहेगी। व्यापार में विकास होने से मन में आनंद छाया रहेगा।</p>
<p><b>तुला</b></p> <p>आज का दिन आप के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। स्थावर संपत्ति सम्बंधित दस्तावेज करने हेतु सावधानी बरतिएगा।</p>	<p><b>वृश्चिक</b></p> <p>आज का दिन व्यवसायियों के लिए अनुकूल है। गृहस्थ जीवन में उलझे हुए प्रश्नों का निराकरण होगा। मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव होगा।</p>	<p><b>धनु</b></p> <p>वाणी पर संयम रखने से अन्य लोगों के साथ मनमुटाव के प्रसंगों को आप टाल सकेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में एकाग्रता रखनी पड़ेगी।</p>
<p><b>मकर</b></p> <p>व्यवसायिक क्षेत्र में अनुकूल वातावरण मिलेगा। आज का प्रत्येक कार्य बिना विध्वन के संपन्न होगा। गृहस्थ जीवन में उग्र वातावरण बना रहेगा।</p>	<p><b>कुंभ</b></p> <p>आज मानसिक रूप से धार्मिक भावनाओं का उदय अधिक होगा। धार्मिक कार्य अथवा धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च करेंगे।</p>	<p><b>मीन</b></p> <p>शेयर-स्टॉक की प्रवृत्ति से आज आप को आर्थिक लाभ होगा। विवाहोत्सवों को योग्य पात्र मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति छाई रहेगी।</p>

## मोहित आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाज बने



नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहित शर्मा आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं। मोहित ने अपने अंतिम ओवर में 31 रन दिये। उनके इस ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने जमकर चौके और छके लगाये। दिल्ली ने जब 43 रन पर ही अपने 3 विकेट खो दिये थे तब अक्षर और ऋषभ ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। मोहित ने अपने 4 ओवरों में कुल 73 रन दिये। इस प्रकार वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज बने हैं। बॉलर बन गए हैं। इससे पहले साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले में बेसिल थम्पी ने 70 रन दिये थे जबकि 2023 में यश दयाल ने 69 और साल 2024 में रीस टॉपले ने 68 रन दिये थे।

## आईसीसी ने टी20 विश्व कप के लिए बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया



दुबई। महान धावक जेसन होल्डर को जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक कार्यक्रम के दौरान ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोल्ट को नाम की घोषणा की। जमैका में जन्में बोल्ट ने 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणा 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। बोल्ट ने 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणा 100 मीटर में 9.58 सेकंड, 19.19 सेकंड और 36.84 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बोल्ट ने विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाये जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि ये एक बड़ा सम्मान है। साथ ही कहा कि वह इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज का समर्थन करेंगे। बोल्ट ने कहा कि मैं आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए एम्बेसडर बनकर उत्साहित हूँ।

## ऋषभपंत ऑरेंज कैप के दावेदारों में तीसरे नंबर पर पहुंचे आईपीएल अंक तालिका में एक स्थान ऊपर आयी दिल्ली कैपिटल्स

गुवर्डी, एजेंसी  
दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में मिली जीत के साथ ही एक साथ का लाभ हुआ है और वह छठे स्थान पर आ गयी है। वहीं गुजरात की टीम सातवें नंबर पर खिसक गयी है। दिल्ली कैपिटल्स के अब 9 मैचों में आठ अंक हैं पर -0.386 के बेहतर नेट रन रेट के कारण वह रैंकिंग में गुजरात से ऊपर आ गयी है। गुजरात की टीम अंक तालिका में नौ मैचों में 8 अंकों के साथ ही छठे से खिसककर सातवें स्थान पर पहुंच गयी है।

वहीं अंक तालिका में अभी राजस्थान रॉयल्स 14 अंकों के साथ शीर्ष पर है जबकि 10-10 अंक लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जाइंट्स दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। चेन्नई के 8 मैचों में 8 अंक हैं जिस कारण वह पांचवें स्थान पर है। मुंबई

इंडियंस 6 अंक लेकर आठवें, पंजाब किंग्स 4 अंक लेकर नौवें और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 अंक लेकर 10वें स्थान पर है। ऑरेंज कैप के दावेदारों में आरसीबी के विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाकर सबसे बड़े दावेदार बने हुए हैं। विराट के 379 रन हैं, दूसरे नंबर पर सीएसके के रुरुराज गायकवाड़ हैं उनके 349 रन हैं जबकि गुजरात के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर 88 रन बनाने के साथ ही दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत कुल 342 रनों के साथ ही तीसरे नंबर पर आ गये हैं। पंजाब कैप की सूची में मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह 13 विकेट लेकर पहले जबकि राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल 13 विकेट लेकर दूसरे नंबर हैं। पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल भी 13 विकेट, तीसरे नंबर पर हैं। औसत और इकोनॉमी में बेहतर होने के कारण बुमराह और चहल को पहला और दूसरा स्थान मिला है।

## ऋषभ अब ज्यादा परिपक्व और धैर्यवान हुए : अक्षर

नई दिल्ली, एजेंसी  
दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने कहा है कि टीम के कप्तान ऋषभ पंत में वापसी के बाद काफी बदलाव आया है और वह अधिक परिपक्व हो गये हैं। ऋषभ ने कार हादसे से करीब 14 महीने के बाद वापसी करते हुए आईपीएल में विकेटकीपिंग के साथ ही बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उनकी फिटनेस का स्तर भी अच्छा है।

ऋषभ ने अब तक इस सत्र में 8 मैचों में दो अर्धशतक से 254 रन बनाए हैं। अक्षर ने कहा कि ऋषभ अब पिछले डेढ़ साल की तुलना में ज्यादा परिपक्व और धैर्यवान हो गये हैं। वह अब काफी परिपक्वता के साथ बातचीत करते हैं।



निश्चित ही उसका स्वाभाविक खेल और शॉट्स अब भी पहले जैसे ही हैं। मगर अब मुझे लगता है कि वो ज्यादा शांत हैं और किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। अक्षर का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा है। इंपैक्ट प्लेयर नियम के कारण अक्षर को

## सहवाग बोले, धोनी को टी-20 विश्वकप के लिए शामिल किया जाना चाहिये

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेन्द्र सिंह धोनी को आगामी टी20 विश्वकप के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर रखा जाना चाहिये जबकि धोनी को संन्यास लिए काफी समय हो गया है। वह अभी केवल आईपीएल खेल रहे हैं। धोनी स्वयं भी संन्यास से वापसी किसी कीमत पर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हाल ही में संकेत दिये थे कि अगर उनका शरीर साथ देगा तभी वह अगले सत्र में खेलेंगे।

वहीं सहवाग का कहना है कि आगामी टी-20 विश्वकप में धोनी को शामिल किया जाना चाहिये। टी-20 विश्वकप एक जून से वेस्टइंडीज



और अमेरिका में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा कुछ ही समय में होगी। सहवाग ने एक शो पर विकेटकीपर के तौर धोनी को लेकर जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, आईपीएल में इस बार धोनी का 255 का स्ट्राइक रेट है और औसत है ही नहीं, क्योंकि वह आउट ही नहीं

हुए हैं। 34 गेंदों में अब तक धोनी ने 87 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनकी फिटनेस भी अभी काफी अच्छी है।

सहवाग ने साथ ही कहा, टी-20 विश्वकप में कीपिंग के साथ ही धोनी अनुभवी होने के कारण अंतिम ओवरों में एक बेहतर फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। अभी भी वह आईपीएल में विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी कर रहे गौरालत है कि आईपीएल में अब तक धोनी ने अपनी बल्लेबाजी से प्रशंसकों का अच्छा मनोरंजन किया है। धोनी ने अंतिम ओवरों में आकर अपनी तुफानी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाया है। लखनऊ के खिलाफ मैच में धोनी ने केवल 9 गेंदों पर 28 रन बना दिये थे।

## 'इंपैक्ट' प्लेयर नियम से हो रहा खेल को नुकसान : एडम

गुवर्डी, एजेंसी

आईपीएल को रोमांच बनाये रखने के लिए 'इंपैक्ट' प्लेयर का जो नियम लाया गया है उससे कई दिग्गज सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये खेल के लिए नुकसानदेह है। वहीं अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सलाहकार ऑस्ट्रेलिया के एडम वोय्स ने कहा है कि इस नियम पर दोबारा विचार किया जाना चाहिये। उनके अनुसार इसकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का 'पावर सर्ज' होना चाहिये। इसमें बल्लेबाजी टीम को फील्डिंग पाबंदियों के दो ओवर के चरण पर फैसले की अनुमति होती है।

'इंपैक्ट' खिलाड़ी नियम पिछले सत्र में शामिल किया गया था और इस सत्र में इसपर कई खिलाड़ियों ने सवाल उठाये हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी ऐसे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनका कहना है कि ये नियम ऑलराउंडरों के लिए नुकसानदेह है। वोय्स भी रोहित से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि यह नियम क्रिकेट को रोमांचक तो बना रहा है पर इससे ऑलराउंडर खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। साथ ही कहा, 'इस नियम के कारण टूर्नामेंट में काफी बड़े स्कोर बन रहे हैं और टीम के लिए मजबूत बल्लेबाज सातवें या आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से इससे क्रिकेट को रोमांच का स्तर बढ़ गया है पर इससे मैच में ऑल राउंडर की भूमिका और उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है जबकि ऑलराउंडर हमेशा ही टीम को संतुलन प्रदान करते हैं।' वहीं ऑस्ट्रेलिया के 'पावर सर्ज' के नियम को लेकर वोय्स ने कहा कि इससे मुकाबला दिलचस्प हो जाता है और उन्हें यह नियम

## बिजनेस

### एचयूएल का मुनाफा 1.6 फीसदी घटा

नई दिल्ली, एजेंसी  
देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के मुनाफे में गिरावट आई है लेकिन यह बाजार की उम्मीद से थोड़ा बेहतर रहा है। वित्त वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1.6 फीसदी घटकर 2,558 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,600 करोड़ रुपये था। एचयूएल की आय वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में महज 0.6 फीसदी बढ़कर 15,041 करोड़ रुपये रही, वहीं बिक्री में सालाना आधार पर केवल 2 फीसदी की वृद्धि देखी गई। एक खबर के अनुसार विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 2,517.2 करोड़ रुपये मुनाफे और 15,156.7 करोड़ रुपये आय का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में आय 1.7 फीसदी घटी है जबकि मुनाफा 2 फीसदी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी

## भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति भविष्य में कम गंभीर होगी: आरबीआई

नई दिल्ली, एजेंसी  
आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के एक सदस्य ने कहा कि भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या भविष्य में कम गंभीर होगी, क्योंकि विविध स्रोतों के साथ आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से निपटने में मदद कर सकती हैं। भारत में घरेलू बजट में भोजन की हिस्सेदारी अधिक होने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नीति के कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होने की जरूरत है, क्योंकि स्थिर कृषि कीमतें मुद्रास्फीति से परे वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित होगा, इस उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की



गंभीरता कई कारणों से कम होती जाएगी। विविध स्रोतों वाली आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट वस्तुओं के दाम बढ़ने पर उनसे निपटने में मदद करेंगी। किसी ने भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टमाटर या प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्वाभाविक रूप से विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर

एकीकृत बाजार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने में मदद कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4.85 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होना रहा। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति मार्च में 8.52 प्रतिशत रही, जो फरवरी में 8.66 प्रतिशत थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि मुद्रास्फीति 2024-25 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी। यह 2023-24 में 5.4 प्रतिशत और 2022-23 में 6.7 प्रतिशत थी।

### बिहार में पेट्रोल और डीजल सस्ता

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता भी हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं। गुरुवार को बिहार में पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है। यहां पेट्रोल के दाम 19 पैसे घटकर 107.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 18 पैसे घटकर 93.84 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 67 पैसे घटकर 103.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 63 पैसे घटकर 90.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा आंध्रप्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, तामिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटी हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल की कीमत 92.15 रुपये है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 92.34 रुपये प्रति लीटर हैं।

### ऑडी जून से वाहनों की कीमत दो प्रतिशत बढ़ाएगी

नई दिल्ली। जर्मनी की वाहन विनिर्माता ऑडी ने कच्चे माल की बढ़ती कीमत के प्रभाव को कम करने के लिए जून से भारत में अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। वाहन विनिर्माता ने कहा कि एक जून 2024 से बढ़ी हुई कीमतें प्रभावी होंगी। ऑडी इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत हमें एक जून 2024 से कीमतों में दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद वाहन विनिर्माता और उसके डीलर भागीदारों की सतत वृद्धि सुनिश्चित करना है। अधिकारी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि बढ़ती लागत का असर हमारे ग्राहकों पर यथासंभव कम से कम पड़े। ऑडी इंडिया की खुदरा बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,027 इकाईं रहि थी।

एप्पल भारत में तीन नए स्टोर खोलो  
नई दिल्ली। एप्पल बहुत जल्द भारत में 3 नए स्टोर खोल सकता है। जिससे आप यहां से एप्पल के प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल बहुत समय से भारत में अपना कारोबार बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कंपनी जिन शहरों में अपने स्टोर खोलेंगी, इसमें पुणे, बेंगलूर और नोएडा का नाम शामिल है। ऐपल ने पिछले साल ही 2 स्टोर खोले थे। इसकी कामयाबी को देखते हुए ऐपल ने अपने कारोबार को नई दिशा देने का फैसला किया है। रिपोर्ट की मानें तो एप्पल के दोनों स्टोर की मासिक बिक्री 16-17 करोड़ रुपए है। लांच के बाद से ही बिक्री में लगातार उछाल आया है।

## सैंसेक्स 486 अंक की तेजी के साथ 74,339 पर बंद, निफ्टी में भी 167 अंक की बढ़त रही

कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 10.73 प्रतिशत टूटा

गुवर्डी, एजेंसी  
शेयर बाजार में आज यानी 25 अप्रैल को तेजी देखने को मिली। सैंसेक्स 486 अंक की तेजी के साथ 74,339 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 167 अंक की तेजी रही, ये 22,570 के स्तर पर बंद हुआ। सैंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली।



1.57 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 1.11 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर में 1.38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। जबकि, निफ्टी रियल्टी में 0.25 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूम ड्यूरेबल्स में 0.43 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का

निर्देश दिया। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते आज कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 10.73 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। बैंक पर ये प्रतिबंध लगाने का कारण बताते हुए RBI ने कहा कि 2022 और 2023 के बीच उसने पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने को लेकर बैंक को अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में लगातार विफल रहा।

## इंश्योरेंस कराते समय गाड़ी के इंजन टाइप का ध्यान रखना जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी  
इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो क्लेम लेने में मुश्किल आ जाती है। ऐसे में आपको ऑटो इंश्योरेंस को समझना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। ऑटो इंश्योरेंस कराते समय आपको गाड़ी के इंजन टाइप पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वह पेट्रोल, डीजल या ईवी है। अगर आपकी ईवी या फिर हाइब्रिड है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इंश्योरेंस में चार्जिंग केबल, कनेक्टर, एडाप्टर आदि भी कवर होना चाहिए। इसमें आग लगना और चोरी जरूर शामिल होनी चाहिए। कवरज का भी इंश्योरेंस में काफी महत्व होता है। ऐसे में आपको हमेशा ऐसे प्लान लेना चाहिए जो आपको पूरी गाड़ी को कवर कर सके। आपको हमेशा कार्मोहेसिव कवरज प्लान चुनना

चाहिए। इसमें ज्यादा कवरेज मिलता है। वहीं, अगर आप थर्ड पार्टी कवरेज लेते हैं तो इसमें गाड़ी कवर नहीं होती है। ऑटो इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) का खास ध्यान रखना होता है। आपको उन्हीं इंश्योरेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो आपको अधिकतम आईडीवी वैल्यू देते हैं। आईडीवी वह वैल्यू होती है, जिस पर कर्पनियां आपको क्लेम देती है। इंश्योरेंस में एंड ऑन कवरेज जैसे बेकड्राउन एसिस्टेंस, टायर प्रोटेक्शन, इंजन और गेयरबॉक्स प्रोटेक्शन जैसे प्लान को शामिल करना चाहिए। आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, जिसका क्लेम सुनिश्चित रेश्यो सबसे अधिक है। आपको क्लेम प्रोसेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और ऐसे इंश्योरेंस का चुनाव करना चाहिए जो सेल्फ इंस्पेक्शन क्लेम की सुविधा देता है।

### न्यूज़ इन शॉर्ट

## 'प्रत्येक वोट जरूरी है' पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता की बढ़ी तिथि

**भोपाल।** मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान का प्रतिशत बेहतर है, इसके लिए मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वोट जरूरी है विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नागरिकों को अतिरिक्त अवसर देने की मंशा से इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। पहले यह 25 अप्रैल थी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्राप्त प्रतियोगियों के मूल्यांकन के लिए एक राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन भी किया गया है। चयन समिति के मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी प्रतियोगिता दृश्य 10:44:11:44 पोर्टल पर मेजनी होगी। इसके साथ ही प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

### समर्थन मूल्य पर गेहूँ

## उपार्जन का कार्य अब सप्ताह में 7 दिवस

**भोपाल।** रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए जारी उपार्जन नीति के तहत कृषकों से गेहूँ उपार्जन का कार्य सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार तक करने का प्रावधान किया गया था। जिला आपूर्ति नियंत्रक सुनील मालाकार ने बताया कि किसानों की सुविधा को दृष्टिगत गेहूँ उपार्जन का कार्य अब सप्ताह में 7 दिवस सोमवार से रविवार तक उपार्जन अवधि तक किया जाएगा।

### ट्रांसफार्मर, पोल के पास ठेले न लगाएं, हो सकती है दुर्घटना

**भोपाल।** मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि व्यापारीगण या फेरी वाले बिजली के वितरण ट्रांसफार्मर एवं पोल के आसपास हाथ देते या गुमटियां न लगाएं। ऐसा करने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि कई स्थानों पर ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा करके लोग जान अर्पनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं इस तरह से बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर से सटकर ठेले पर सामान बेचना नियमों के विपरीत भी है। इसलिए यदि कहीं पर भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हों तो स्वयं ही उन्हें हटा लें, अन्यथा विद्युत वितरण कंपनी को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

### सिस्टेक रातीबढ़ में हुआ कौन बनेगा वोटर नंबर वन

**भोपाल।** युवा मतदाताओं को जागरूक करने उनमें मतदान के प्रति रुझान पैदा करने और भोपाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन भोपाल द्वारा सूक्ष्मश्वकट अन्तर्गत भोपाल के महाविद्यालयों 'कौन बनेगा वोटर नम्बर वन' मल्टीमीडिया क्रिज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सिस्टेक रातीबढ़ के सभागार में स्टूडेंट्स एवं प्राध्यापकों के मध्य मल्टीमीडिया क्रिज आयोजित की गई। छात्र-छात्राओं के साथ-साथ प्राध्यापकों का जोश मतदान के प्रति उत्साह को प्रदर्शित कर रहा था। हॉट सीट पर बैठे बच्चे बड़ी आरुतता से प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वहीं दर्शकों के लिए राउंड में दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चे और प्राध्यापक सही जवाब दे अपना नाम लक्ष्मी ड्रॉ के लिए पक्का कर रहे थे। अब बताओ तो जॉन चैलेंज राउंड में बच्चों के साथ शिक्षकों ने भी चैलेंज स्वीकार कर बिना प्रश्न देखे जवाब दिए। 2 घंटे चली इस रोचक प्रतियोगिता से छात्राओं ने मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की अंत में संस्थान के प्रथम वोटर्स के साथ सभी को मतदान की शपथ दिला सभी को वोट देने जाने का आह्वान किया। संस्थान के प्राचार्य एवं सभी स्टाफ की उपस्थिति में खेली गई। क्रिज में टॉप 10 बच्चों का चयन किया गया जो मेगा राउंड में खेलेंगे। क्रिज का संचालन रविकान्त ठाकुर, स्वीप समन्वयक एवं मोहन मालवीय, भोपाल ने किया।

### मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ सामान्य प्रेक्षक ने प्रशिक्षण में पहुंचकर लिया जायजा

**भोपाल।** जिले में मतदान दलों को द्वितीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सामान्य प्रेक्षक श्रीमती रुबल अग्रवाल ने गुरुवार को समन्वयक भवन में पहुंचकर जारी प्रशिक्षण का जायजा लिया। प्रशिक्षण पर अधिकारी/कर्मचारियों से चर्चा की और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह भी मौजूद थे। प्रशिक्षण में बताया गया कि सामग्री वितरण के लिए मतदान दलवार टेबल लगाये जायेंगे। सेक्टर्ड ऑफिसर अपने सेक्टर्ड के मतदान केन्द्र में लगने वाले दलों से संपर्क कर कन्सुलिटेशन हेतु उनके कोऑर्डिनेटर नंबर आदि प्राप्त कर लेंगे। सामग्री प्राप्त करने के पश्चात सामग्री का मिलान करा ले तथा ईडैपिन, बीयू, सीयू एवं वीवीपेट के नंबर आदि मतदान केन्द्रवार नोट करें। प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। जिले में आगामी 7 मई को सुव्यवस्थित रूप से मतदान करने के लिये मतदान दलों का गठन किया गया है। मतदान दलों में लगे पीएससी अधिकारी, मतदान अधिकारियों और मास्टर ऑफर को प्रशिक्षण दिया जायेगा। सामान्य प्रेक्षक ने निर्देश दिए कि मतदान दलों में नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। मतदान दलों को सैद्धान्तिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान दलों को मतदान कराने की प्रक्रिया, उनके अधिकार-कर्तव्य, मतदान संबंधी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गये निर्देशों, मतदान संबंधी नियम और कानूनों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

## कटनी में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता कांग्रेस मुक्त होने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है कटनी: विष्णुदत्त शर्मा

**विजय मत, खुरो, कटनी**  
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को कटनी में कांग्रेस के अनेक नेताओं व 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और नेतृत्व से प्रभावित



होकर कांग्रेस के जिन नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उन सभी का मैं भाजपा परिवार में स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद कटनी में कांग्रेस मुक्त नहीं है और कटनी ने कांग्रेस मुक्त होने की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं।

**प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष ली सदस्यता...** भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के समक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सचिव, जिला महासचिव सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में कटनी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम खन्परिया, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष व उद्योगपति रौनक खडेलवाल, मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता एवं कटनी महापौर प्रयाशी श्रीमती श्रेया खडेलवाल, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकित सिधानिया, जिला महासचिव मुकेश पाठक एवं युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आकाश तिवारी सहित 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनकर सभी का स्वागत किया।

### मुरैना में विरासत टैक्स को लेकर पीएम का राहुल पर बड़ा हमला

## इंदिरा की संपत्ति पाने राजीव ने बदला था कानून: पीएम मोदी

**विजय मत, खुरो मुरैना**  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्यप्रदेश आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस प्रेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। पीएम ने कहा- कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला-बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूँ, दुखी न हों क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गोली-गलीज करते आए हैं। पीएम ने कहा- देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गोली-गलीज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तानकर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे ये मोदी की गारंटी है।



### कांग्रेस सरकार में आई तो इंडेरिंस टैक्स लगाएगी

कांग्रेस सरकार में आई तो इंडेरिंस टैक्स लगाएगी। आज पहली बार देश के सामने एक दिलचस्प तथ्य रख रहा हूँ। जब देश की पीएम बहन इंदिराजी नहीं रहीं तो उनकी प्रॉपर्टी जो उनकी संतानों को मिलनी थी, लेकिन पहले कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। तब वहां थी कि जब इंदिराजी नहीं रहीं और उनके बेटे राजीव को ये प्रॉपर्टी मिलनी थी तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस समय के पीएम राजीव गांधी ने पहले के इंडेरिंस कानून को समाप्त करवा दिया। वहां मामला निपट गया तो फिर सत्ता पाने के लिए ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं।

### एक गोली आती है तो 10 गोली चल जानी चाहिए

कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे उसे सबसे पीछे रखे। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही इसे लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की भी चिंता की। कांग्रेस ने जवानों के हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें खुली छूट दे दी। अगर एक गोली आती है, 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए।

### इन नामदारों से कुछ मत कहे, हम कामदार सहन करेंगे

कांग्रेस के शहजादे को मोदी के लिए भला-बुरा कहने में मजा आ रहा है। सोशल मीडिया और टीवी पर लोग चिंता जताते हैं कि ऐसी भाषा पीएम के लिए बोलना ठीक नहीं है। मेरी विनती है आप दुखी मत होइए, आपको पता है, वे नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गोली-गलीज करते आए हैं। मैं तो गरीबी से निकला हूँ, पांच-पचास गालियां पड़ जाएंगी तो पड़ जाएंगी।

### शहजादे कह रहे हैं आपकी सम्पत्ति का एक्स-रे होगा

शहजादे पूरे देश में बढ-चढ़कर कह रहे हैं आपकी सम्पत्ति का एक्स-रे होगा। आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता-बहन ने डिब्बे में कुछ बचा रखा है, एक्स-रे करके खोजा जाएगा। स्त्रीधन और मंगलसूत्र पवित्र होता है कोई उसे नहीं छूता है। कांग्रेस उसे जब करके वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की घोषणा कर रही है। मेनिफेस्टो में बता रही है। ये एक्स-रे करके आपको लूटने की योजना बना रहे हैं। मुरैना के लोग जानते हैं समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उसे दूर ही रहना चाहिए। मोदी ने कहा जवानों को हमने खुली छूट दी है।

## कार्य की धीमी गति पर निगम आयुक्त ने जताई नाराजगी बी.आर.टी.एस कॉरीडोर हटाने और मार्ग को व्यवस्थित करने के कार्य में और तेजी लाएं

**विजय मत, भोपाल**  
निगम आयुक्त हेरेंद्र नारायण ने आर.आर.एल. तिराहे से मिसरोद के आगे तक निर्मित बी.आर.टी.एस कॉरीडोर के हटाने के कार्य का जायजा लिया और कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए बी.आर.टी.एस कॉरीडोर हटाने के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त श्री नारायण ने कॉरीडोर को हटाने के कार्य को नियत समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए साथ ही हिदायत दी कि निर्धारित समावधि के बाद कोई भी समय वृद्धि नहीं दी जाएगी। निगम आयुक्त ने बी.आर.टी.एस कॉरीडोर हटाने के कार्य में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री नारायण ने आर.आर.एल तिराहे से मिसरोद के आगे तक मुख्य मार्ग में सिगनल लगाने का कार्य भी शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्तद्वय

सुश्री निधि सिंह व पवन सिंह, अधीक्षण यंत्री आर.के.सक्सेना, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी मौजूद थे। निगम आयुक्त हेरेंद्र नारायण ने गुरुवार को प्रातः एवं दोपहर में आर.आर.एल. तिराहे से मिसरोद के आगे तक निर्मित बी.आर.टी.एस कॉरीडोर को हटाने के कार्य का जायजा लिया और कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त नारायण ने बी.आर.टी.एस कॉरीडोर हटाने के कार्य की गति पर नाराजगी जताते हुए बी.आर.टी.एस कॉरीडोर हटाने के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त नारायण ने कॉरीडोर को हटाने के कार्य को हर हाल में नियत समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए साथ ही हिदायत दी कि निर्धारित समावधि के बाद कोई भी समय वृद्धि नहीं दी जाएगी।

**विजय मत, भोपाल**  
पीएम नरेंद्र मोदी के मुरैना दौरे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि सेना भती को लेकर भाजपा के बड़े-बड़े वादों का क्या हुआ। पढ़ें, महासचिव रमेश ने और पीएम मोदी पर और क्या सवाल दोगे। देश भर में लोकसभा चुनाव अलग-अलग चरणों में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण की सात सीटों पर मतदान होगा है। आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में बढ़ती सक्रिय पर कांग्रेस नेता जय राम रमेश ने उनसे तीन के सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि मुरैना में सेना भती को लेकर भाजपा के बड़े-बड़े वादों का क्या हुआ? मध्य प्रदेश के गांवों में अभी भी



पर जाती हैं, तो उन्हें भिंड-मुरैना के सबसे अधिक सैनिक वहां तैनात मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल से मुरैना के शिक्षित युवा सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सकेंगे। उसी कार्यक्रम में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वे भिंड-मुरैना क्षेत्र में सेना का स्थानीय भूतियां स्थापित करेंगे। छह साल बाद, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके बजाय, अनिपथ के माध्यम से, मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों की पवित्रता और भिंड-मुरैना के हजारों महत्वाकांक्षी युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। निर्मला सोतारमण के जोशीले वादों का क्या हुआ? उन लोगों ने मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात क्यों किया है?

### आई हमारी बारी अब वोट देने जाना है - आईएस कॉलेज के प्रथम वोटर्स बच्चों ने लिया संकल्प

**विजय मत, भोपाल**  
ड्रा हेतु पक्का कर रहे थे। अब बताओ तो जानें चैलेंज राउंड में बच्चों के साथ शिक्षकों ने भी चैलेंज स्वीकार कर बिना प्रश्न देखे जवाब दिए। 2 घंटे चली इस रोचक प्रतियोगिता से छात्राओं ने मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की अंत में संस्थान के प्रथम वोटर्स के साथ सभी को मतदान की शपथ दिला सभी को वोट देने जाने का आह्वान किया। संस्थान की डायरेक्टर डॉ. सुनीता सिंह, डॉ. प्रीति पाण्डे एवं समस्त स्टाफ की उपस्थिति में खेली गई क्रिज में टॉप 10 बच्चों का चयन किया गया जो मेगा राउंड में खेलेंगे। कार्यक्रम के समापन में डॉ. प्रीति पाण्डे का प्रशिक्षण देकर मास्टर का सम्मान किया क्रिज का संचालन रविकान्त ठाकुर, स्वीप समन्वयक एवं मोहन मालवीय भोपाल ने किया।

**विजय मत, भोपाल**  
पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने गुरुवार को भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा चुनाव कार्यालय में बैठक को किया संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए आंदोलन किया और अपना बलिदान दे दिया। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 नये वोट बढ़ाकर हरे। मुखर्जी जी को सब्जी श्रद्धांजलि देना है। भाजपा के कार्यकर्ता कमर कसकर अपने-अपने बूथों में 370 नये वोट बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करें।

### खास-खाबर भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा चुनाव कार्यालय में बैठक को किया संबोधित

**विजय मत, भोपाल**  
पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने गुरुवार को भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा चुनाव कार्यालय में बैठक को किया संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें हर बूथ पर 370 नये वोट बढ़ाकर हरे। मुखर्जी जी को सब्जी श्रद्धांजलि देना है। भाजपा के कार्यकर्ता कमर कसकर अपने-अपने बूथों में 370 नये वोट बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करें।

**विजय मत, भोपाल**  
नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार देश का विकास कर रही है। प्रधानमंत्री के दस वर्ष के कार्यकाल में अनेकों ऐसी उपलब्धियां हैं, जिन्हें जनता तक हमें पहुंचाना है। 500 वर्षों के सघर्ष और लाखों लोगों के वलिदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भव्य राममंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्ष के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान बैजक में पार्टी महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। हितानंद जी ने कहा कि आज विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ा है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के



लेिए केन्द्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उच्चवला योजना के जरिये ग्रामीण महिलाओं को धुएँ से मुक्ति मिली है तो वहीं पीएम स्वनिधि और ड्रोन दीदी योजना के जरिये सहायता प्रदान की जा रही है। हितानंद जी ने कहा कि आज विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ा है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के